



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-20] रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 मई, 2019 ई0 (ज्येष्ठ 04 1941 शक सम्वत्) [संख्या-21

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	रु0 3075
भाग 1—विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	315-316	1500
भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	637-639	1500
भाग 2—आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया	395-430	975
भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6—बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7—इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8—सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि	79-80	975
स्टोर्स पर्वेज-स्टोर्स पर्वेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

ग्राम्य विकास अनुभाग—3

नियुक्ति/विज्ञप्ति

02 मई, 2019 ई0

संख्या 106/XI(3)/2019/53(86)2012/Vol-1—उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा चयनित/संस्तुत निम्न अभ्यर्थियों को प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (कृषि अभियन्त्रण एवं उत्पादन) के पद पर वेतनमान ₹ 15,600—39,100, ग्रेड वेतन—₹ 5,400 (सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान ₹ 56,100—1,77,500, लेवल—10) के अनुसार कॉलम—4 में अंकित प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से नियुक्त करते हुए, दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर तैनात करने की मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	गृह जनपद	तैनाती का जनपद/संस्थान
1	2	3	4
1.	कु0 किरन, प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी, (कृषि अभियन्त्रण एवं उत्पादन)	हरिद्वार	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, पौड़ी
2.	श्री कृष्ण कुमार, प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (कृषि अभियन्त्रण एवं उत्पादन)	ऊधमसिंह नगर	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, थरकोट, पिथौरागढ़

- उक्त अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अधीन प्रसारित सामान्य नियमों/नियमावलियों के अन्तर्गत निर्धारित की जायेगी।
- नियुक्त अभ्यर्थियों को उक्त वेतनमान के अतिरिक्त शासन द्वारा समय—समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते भी देय होंगे।
- उक्त नियुक्ति अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त, जाति प्रमाण—पत्रों तथा चरित्र प्रमाण—पत्रों के सत्यापन के सकारात्मक होने के प्रतिबन्ध के अधीन की जा रही है। पूर्ववृत्त, जाति प्रमाण—पत्रों तथा चरित्र प्रमाण—पत्रों के सत्यापन के सकारात्मक न होने पर सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेंगी।
- उक्त नवनियुक्त अभ्यर्थियों द्वारा सम्बन्धित जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी के यहाँ निम्न प्रमाण—पत्रों के साथ योगदान सूचना प्रस्तुत की जायेगी:—
 - अपनी चल—अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा—पत्र।
 - विवाहित होने की स्थिति में एक से अधिक जीवित पत्नी/पति होने का घोषणा—पत्र।
 - शैक्षिक योग्यता एवं चरित्र प्रमाण—पत्र।
 - दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण—पत्र।
- उक्त नव नियुक्त अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने हेतु की गई यात्रा के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

आज्ञा से,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 21 हिन्दी गजट/225—भाग 1—2019 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 मई, 2019 ई0 (ज्येष्ठ 04 1941 शक सम्वत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

April 09, 2019

No. 126/UHC/Admin.A/2019—Sri Arun Vohra, Secretary, DLSA, Udham Singh Nagar is repatriated, transferred and posted as 1st Addl. Civil Judge (Sr. Div.), Hardwar vice Smt. Jyoti Bala.

NOTIFICATION

April 09, 2019

No. 127/UHC/Admin.A/2019—Sri Hemant Singh, Secretary, DLSA, Uttarkashi is repatriated, transferred and posted as Principal Magistrate (1st Class), Juvenile Justice Board, Udham Singh Nagar, vice Sri Sanjeev Kumar.

NOTIFICATION

April 09, 2019

No. 128/UHC/Admin.A/2019—Smt. Jyoti Bala, 1st Addl. Civil Judge (Sr. Div.), Hardwar is posted as 2nd Addl. Civil Judge (Sr. Div.), Hardwar vice Ms. Ritika Semwal.

NOTIFICATION

April 09, 2019

No. 129/UHC/Admin.A/2019—Ms. Chhavi Bansal, Joint Director UJALA, Bhowali is transferred and posted as 1st Addl. Civil Judge (Sr. Div.), Udham Singh Nagar vice Sri Yogendra Kumar Sagar.

NOTIFICATION*April 09, 2019*

No. 130/UHC/Admin.A/2019—Ms. Ritika Semwal, 2nd Addl. Civil Judge (Sr. Div.), Hardwar is transferred and posted as Joint Director UJALA, Bhowali, *vice* Mw. Chhavi Bansal.

NOTIFICATION*April 09, 2019*

No. 131/UHC/Admin.A/2019—Ms. Shweta Rana Chauhan, Civil Judge (Sr. Div.), Nainital is transferred and posted as 4th ACJM, Dehradun *vice* Sri Avinash Kumar Srivastava.

NOTIFICATION*April 09, 2019*

No. 132/UHC/Admin.A/2019—Sri Sanjeev Kumar, Principal Magistrate (1st Class), Juvenile Justice Board, Udham Singh Nagar is posted as 3rd Addl. Civil Judge (Sr. Div.), Udham Singh Nagar in the vacant Court.

NOTIFICATION*April 09, 2019*

No. 133/UHC/Admin.A/2019—Ms. Durga, Civil Judge (Jr. Div.), Uttarkashi is promoted in Civil Judge (Sr. Div.), Cadre in the pay scale of ₹ 39,530-920-40,450-1,080-49,090-1,230-54,010.

NOTIFICATION*April 09, 2019*

No. 134/UHC/Admin.A/2019—Sri Ravindra Dev Mishra, Civil Judge (Jr. Div.), Hardwar is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Didihat, District Pithoragarh *vice* Sri Ravi Ranjan.

He is also given additional charge of Civil Judge (Jr. Div.), Dharchula to hold camp Court for three to four days in a month.

NOTIFICATION*April 09, 2019*

No. 135/UHC/Admin.A/2019—Sri Ravi Ranjan, Civil Judge (Jr. Div.), Didihat, District Pithoragarh is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Khatima, District Udham Singh Nagar *vice* Ms. Beenu Gulyani.

The officer will not be entitled for Transfer Travelling Allowance as the transfer is on request.

NOTIFICATION*April 09, 2019*

No. 136/UHC/Admin.A/2019—Ms. Beenu Gulyani, Civil Judge (Jr. Div.), Khatima, District Udham Singh Nagar is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Bazpur, District Udham Singh Nagar *vice* Ms. Parul Thapalyal.

NOTIFICATION*April 09, 2019*

No. 137/UHC/Admin.A/2019—Sri Sachin Kumar, 2nd Addl. Civil Judge (Jr. Div.), Hardwar is posted as Civil Judge (Jr. Div.), Hardwar *vice* Sri Ravindara Dev Mishra.

NOTIFICATION*April 09, 2019*

No. 138/UHC/Admin.A/2019—Ms. Parul Thapalyal, Civil Judge (Jr. Div.), Bazpur, District Udham Singh Nagar is transferred and posted as Addl. Civil Judge (Jr. Div.), Khatima, District Udham Singh Nagar in the vacant Court.

The officer will not be entitled for Transfer Travelling Allowance as the transfer is on her request.

NOTIFICATION*April 09, 2019*

No. 139/UHC/Admin.A/2019—Sri Vivek Singh Rana, Judicial Magistrate, Kotdwar, District Pauri Garhwal is posted as Civil Judge (Jr. Div.), Kotdwar in the vacant Court.

NOTIFICATION*April 09, 2019*

No. 140/UHC/Admin.A/2019—Ms. Shikha Bhandari, Judicial Magistrate-III, Dehradun is transferred and posted as Judicial Magistrate, Kotdwar, District Pauri Garhwal *vice* Sri Vivek Singh Rana.

The officer will not be entitled for Transfer Travelling Allowance as the transfer is on her request.

Note : (a) The above transfer orders will come into force w.e.f. 15.04.2019.

Note : (b) Recommendation is being sent to the SLSA, Uttarakhand for posting of following officers :

1. Sri Yogendra Kumar Sagar, 1st Additional Civil Judge (Sr. Div.), Udham Singh Nagar for posting as Secretary, DLSA, Almora.
2. Sri Avinash Kumar Srivastava, 4th ACJM, Dehradun for posting as Secretary, DLSA, Udham Singh Nagar.
3. Ms. Durga, Civil Judge (Jr. Div.), Uttarkashi, now promoted to Senior Division Cadre for posting as Secretary, DLSA, Uttarkashi.

By Order of the Court,

Sd/-

PRADEEP PANT,

Registrar General.



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 मई, 2019 ई0 (ज्येष्ठ 04 1941 शक सम्वत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

निदेशालय पंचायतीराज
उत्तराखण्ड, देहरादून

अधिसूचना

08 मार्च, 2019 ई0

संख्या 2873/3-पं0/ग्रा0पं0/2018-19-उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 धारा-3 एवं धारा-4 के उपबन्धों एवं शासनादेश संख्या 1698/XII(1)/2018-86(31)/2018, दिनांक 14 नवम्बर, 2018 के अनुसार, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन प्रस्ताव नियत समय-सारणी के अनुसार यथाविधि प्रकाशित किए जा चुके हैं,

और, चूँकि, उक्त प्रस्तावों के सन्दर्भ में प्राप्त आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है और जिले के लिए समेकित प्रस्ताव जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त हो गए हैं,

अतएव, अब, मा0 राज्यपाल महोदया पूर्वोक्त समेकित प्रस्ताव और उससे सम्बन्धित सुसंगत सामग्री पर विचार करते हुए, ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में एतद्वारा संलग्न सारणी के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम या यथास्थिति ग्रामों के समूह में समाविष्ट क्षेत्र को, स्तम्भ-7 में उल्लिखित ग्राम सभाएँ एवं उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन सारणी के स्तम्भ-8 में विनिर्दिष्ट नाम से पंचायत क्षेत्र घोषित करते हैं।

क्षेत्र पंचायत का नाम-बेरीनाग				जिले का नाम-पिथौरागढ़			
वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम सभा का नाम	पंचायत क्षेत्र का नाम	क्र० सं०	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम सभा का नाम	पंचायत क्षेत्र का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 आमहाट	आमहाट	आमहाट	1	1 आमहाट	आमहाट	आमहाट
	2 जसौली				2 जसौली		
	3 खौलागाड				3 खौलागाड		
	4 बसेत				4 बसेत		
	5 मलान				5 मलान		
2	1 अंगडियागाडा	अंगडियागाडा	अंगडियागाडा	2	1 नैनी	नैनी	नाम परिवर्तन नैनी
	2 जालडी				2 जालडी		
	3 सिंगोली				3 सिंगोली		
	4 नैनी				4 अंगडियागाडा		
	5 रोटन				5 रोटन		
3	1 उडियारी	उडियारी	उडियारी	3	1 उडियारी	उडियारी	उडियारी
4	1 उडीसिरतोली	उडीसिरतोली	उडीसिरतोली	4	1 उडीसिरतोली	उडीसिरतोली	उडीसिरतोली
	2 मुडौली				2 मुडौली		
	3 चिल्किया				3 चिल्किया		
5	1 उप्राडा	उप्राडा	उप्राडा	5	1 उप्राडा	उप्राडा	उप्राडा
	2 त्वातडपाठक				2 त्वातडपाठक		
	3 जाजरसिरतोली				3 जाजरसिरतोली		
	4 कमडौली				4 कमडौली		
	5 गोलागांव				5 गोलागांव		
	6 जयखेत				6 जयखेत		
	सुरालगांव				सुरालगांव		
	7 मुडौली दुबौली				7 मुडौली दुबौली		
	8 जाजरमाफी				8 जाजरमाफी		
	9 जाजरखितोली				9 जाजरखितोली		
6	1 ऐराडी	ऐराडी	ऐराडी	6	1 ऐराडी	ऐराडी	ऐराडी
7	1 कमदीना	कमदीना	कमदीना	7	1 कमदीना	कमदीना	कमदीना
	2 दडमेत				2 दडमेत		
	3 बगडौली				3 बगडौली		
8	1 करालामहर	करालामहर	करालामहर	8	1 करालामहर	करालामहर	करालामहर
	2 करालापाठक				2 करालापाठक		
	3 स्योली				3 स्योली		
9	1 क्वैराली	क्वैराली	क्वैराली	9	1 क्वैराली	क्वैराली	क्वैराली
	2 पथराडी				2 पथराडी		
10	1 काण्डे	काण्डे	काण्डे	10	1 काण्डे	काण्डे	काण्डे
11	1 कालेटी	कालेटी	कालेटी	11	1 कालेटी	कालेटी	कालेटी
	2 गुरुबुरानी				2 गुरुबुरानी		
	उपाध्याय				उपाध्याय		
12	3 गुरुबुरानी	कालासिला	कालासिला	12	3 गुरुबुरानी	कालासिला	कालासिला
	दशौनी				दशौनी		
	1 कालासिला				1 कालासिला		
	2 कपतोला				2 कपतोला		
	3 पीपली				3 पीपली		
	4 बजेत				4 बजेत		
	5 कुटेर				5 कुटेर		
	6 किरमोली				6 किरमोली		

1	2	3	4	5	6	7	8
	7 सालीखेत				7 सालीखेत		
13	1 कोटगाडी	कोटगाडी	कोटगाडी	13	1 कोटगाडी	कोटगाडी	कोटगाडी
14	1 खनात 2 सून्यूडा 3 सकुनकाण्डे	खनात	खनात	14	1 सून्यूडा 2 खनात 3 सकुनकाण्डे	सून्यूडा	नाम परिवर्तन सून्यूडा
15	1 खोलागांव 2 तोराथल 3 जाजरगूठ	खोलागांव	खोलागांव	15	1 खोलागांव 2 तोराथल 3 जाजरगूठ	खोलागांव	खोलागांव
16	1 गढतिर 2 घंघली 3 पुडियागमाफी 4 भनेलागांव 5 गढतिर लगाविरतोला	गढतिर	गढतिर	16	1 गढतिर 2 घंघली 3 पुडियागमाफी 4 भनेलागांव 5 गढतिर लगाविरतोला	गढतिर	गढतिर
17	1 गराउ 2 छलौडी	गराउ	गराउ	17	1 गराउ 2 छलौडी	गराउ	गराउ
18	1 ग्वीर 2 सेली 3 अनोली	ग्वीर	ग्वीर	18	1 ग्वीर 2 सेली 3 अनोली	ग्वीर	ग्वीर
19	1 चचरेत 2 कोटेश्वर 3 टाटापटौली 4 जोग्यूडाकेदार 5 दुनेरा 6 कलेत 7 जोग्यूडानरसिंह	चचरेत	चचरेत	19	1 चचरेत 2 कोटेश्वर 3 टाटापटौली 4 जोग्यूडाकेदार 5 दुनेरा 6 कलेत 7 जोग्यूडानरसिंह	चचरेत	चचरेत
20	1 चनकाना 2 खेतीजैरोली 3 पुंगरखोली	चनकाना	चनकाना	20	1 चनकाना 2 खेतीजैरोली 3 पुंगरखोली	चनकाना	चनकाना
21	1 चामा 2 गनौरा	चामा	चामा	21	1 चामा 2 गनौरा	चामा	चामा
22	1 पिपली 2 रावलगांव 3 चौखुना 4 घटेत	चौखुना	चौखुना	22	1 पिपली 2 रावलगांव 3 चौखुना 4 घटेत	पिपली	नाम परिवर्तन पिपली
23	1 चौकोडी	चौकोडी	चौकोडी	23	1 चौकोडी	चौकोडी	चौकोडी
24	1 चौसाला 2 ग्वीर लगा चौसाला 3 लेग लगा चौसाला 4 प्यारा लगा चौसाला	चौसाला	चौसाला	24	1 चौसाला 2 ग्वीर लगा चौसाला 3 लेग लगा चौसाला 4 प्यारा लगा चौसाला	चौसाला	चौसाला
25	1 जगथली 2 झूरीजगथली 3 लालुका गूठ 4 सालीखेत	जगथली	जगथली	25	1 जगथली 2 झूरीजगथली 3 लालुका गूठ 4 सालीखेत	जगथली	जगथली
26	1 जाखरावत 2 काणाखेत	जाखरावत	जाखरावत	26	1 जाखरावत 2 काणाखेत	जाखरावत	जाखरावत

1	2	3	4	5	6	7	8
	3 मनेत				3 मनेत		
27	1 डांगीगांव 2 हरडी	डांगीगांव	डांगीगांव	27	1 डांगीगांव 2 हरडी	डांगीगांव	डांगीगांव
28	1 डोणू(दुर्गापुर)	डोणू	डोणू	28	1 डोणू(दुर्गापुर)	डोणू	डोणू
29	1 तमोलीग्वीर	तमोलीग्वीर	तमोलीग्वीर	29	1 तमोलीग्वीर	तमोलीग्वीर	तमोलीग्वीर
30	1 थल (जोग्यूडाथल) 2 बरड	थल पढाव	थल पढाव	30	1 थल (जोग्यूडाथल) 2 बरड	थल पढाव	थल पढाव
31	1 अधोली 2 भुरौला 3 दडमोली	दडमोली	दडमोली	31	1 अधोली 2 भुरौला 3 दडमोली	दडमोली	दडमोली
32	1 दौलाउप्रेती 2 सिलकोट 3 सेलाखेत	दौलाउप्रेती	दौलाउप्रेती	32	1 दौलाउप्रेती 2 सिलकोट 3 सेलाखेत	दौलाउप्रेती	दौलाउप्रेती
33	1 दौलावलिया 2 मकारगांव	दौलावलिया	दौलावलिया	33	1 दौलावलिया 2 मकारगांव	दौलावलिया	दौलावलिया
34	1 दशौली 2 गोल्थीउडियार 3 तुसरेडा	दशौली	दशौली	34	1 दशौली 2 गोल्थीउडियार 3 तुसरेडा 4 हलियाडोब	दशौली	दशौली कम सं0 81 से हलियाडोब सम्मिलित
35	1 नगौर 2 हाटभण्डारसेली 3 मौराडी 4 जमेडा	नगौर	नगौर	35	1 नगौर 2 हाटभण्डार सेली 3 मौराडी 4 जमेडा	नगौर	नगौर
36	1 नागिलागांव	नागिलागांव	नागिलागांव	36	1 नागिलागांव	नागिलागांव	नागिलागांव
37	1 नायलसपोली 2 जलाती 3 जजीली	नायलसपोली	नायलसपोली	37	1 नायलसपोली 2 जलाती 3 जजीली	नायलसपोली	नायलसपोली
38	1 पभ्यां 2 धारी 3 गुरसुटी 4 झलचौना	पभ्यां	पभ्यां	38	1 पभ्यां 2 धारी 3 गुरसुटी 4 झलचौना	पभ्यां	पभ्यां
39	1 पॉखूशेरा 2 दन्तोला 3 गढस्यारी	पॉखूशेरा	पॉखूशेरा	39	1 पॉखूशेरा 2 दन्तोला 3 गढस्यारी	पॉखूशेरा	पॉखूशेरा
40	1 पिल्खी 2 मायल 3 गरैनारजवार	पिल्खी	पिल्खी	40	1 पिल्खी 2 मायल 3 गरैनारजवार	पिल्खी	पिल्खी
41	1 पीपलतड 2 छाना 3 झालडा	पीपलतड	पीपलतड	41	1 पीपलतड 2 छाना 3 झालडा	पीपलतड	पीपलतड
42	1 पुरानाथल 2 बलगडी 3 पनौली 4 सिमतोला 5 भूल्गुडा 6 मुसौलापनौली 7 बरतुंगा सिरतोली	पुरानाथल	पुरानाथल	42	1 पुरानाथल 2 बलगडी 3 पनौली 4 सिमतोला 5 भूल्गुडा 6 मुसौलापनौली 7 बरतुंगा सिरतोली	पुरानाथल	पुरानाथल
43	1 पौषा	पौषा	पौषा	43	1 पौषा	पौषा	पौषा

1	2	3	4	5	6	7	8
	2 पोस्ताला				2 पोस्ताला		
44	1 बटगल 2 सकुनखेत	बटगल	बटगल	44	1 बटगल 2 सकुनखेत	बटगल	बटगल
45	1 बडेतबाफिला 2 पटियालीगांव 3 बडेतघनौला	बडेतबाफिला	बडेतबाफिला	45	1 बडेतबाफिला 2 पटियालीगांव 3 बडेतघनौला	बडेतबाफिला	बडेतबाफिला
46	1 बडेत सानीगांव 2 बमरेत भकुण्डा 3 बटरौली	बडेत सानीगांव	बडेत सानीगांव	46	1 बडेत सानीगांव 2 बमरेत भकुण्डा 3 बटरौली	बडेत सानीगांव	बडेत सानीगांव
47	1 बल्याउ 2 अस्याली 3 चायलबगड 4 नौलडा	बल्याउ	बल्याउ	47	1 बल्याउ 2 अस्याली 3 चायलबगड 4 नौलडा	बल्याउ	बल्याउ
48	1 कनेडा 2 मैतोली 3 बाफिला	बाफिला	बाफिला	48	1 कनेडा 2 मैतोली 3 बाफिला	बाफिला	बाफिला
49	1 ब्याती 2 गुरैना	ब्याती	ब्याती	49	1 ब्याती 2 गुरैना	ब्याती	ब्याती
50	1 बुडेश 2 गडेशबिष्ट 3 बिरतोला 4 माणीखेत 5 बयां 6 डुंगरीलगगा वर्षायत	बुडेश	बुडेश	50	1 बुडेश 2 गडेशबिष्ट 3 बिरतोला 4 माणीखेत 5 बयां 6 डुंगरीलगगा वर्षायत	बुडेश	बुडेश
51	1 बेलकोट 2 ठांगा 3 उखेडा 4 भण्डारीबाडा	बेलकोट	बेलकोट	51	1 बेलकोट 2 ठांगा 3 उखेडा 4 भण्डारीबाडा	बेलकोट	बेलकोट
52	1 बेलडाआगर 2 उडियार	बेलडाआगर	बेलडाआगर	52	1 बेलडाआगर 2 उडियार	बेलडाआगर	बेलडाआगर
53	1 बोराआगर 2 किमकोट 3 बनोली	बोराआगर	बोराआगर	53	1 बोराआगर 2 किमकोट 3 बनोली	बोराआगर	बोराआगर
54	1 बैरातजुब्बर (ओड्यूडा) 2 जाबुका 3 टानाबैरात 4 टानाइचलेत 5 सिगल्टी	बैरातजुब्बर	बैरातजुब्बर	54	1 बैरातजुब्बर (ओड्यूडा) 2 जाबुका 3 टानाबैरात 4 टानाइचलेत 5 सिगल्टी	बैरातजुब्बर	बैरातजुब्बर
55	1 बैठोली 2 किरीली	बैठोली	बैठोली	55	1 बैठोली 2 किरीली	बैठोली	बैठोली
56	1 बाँगाड 2 बोकलकटिया 3 बन्तोली 4 नायल 5 बसेत 6 खण्डार	बाँगाड	बाँगाड	56	1 बाँगाड 2 बोकलकटिया 3 बन्तोली 4 नायल 5 बसेत 6 खण्डार	बाँगाड	बाँगाड
57	1 भण्डारीगांव 2 कुमल्टा	भण्डारीगांव	भण्डारीगांव	57	1 भण्डारीगांव 2 कुमल्टा	भण्डारीगांव	भण्डारीगांव

1	2	3	4	5	6	7	8
	3 उडियार भण्डारी				3 उडियार भण्डारी		
58	1 भट्टीगांव पु० 2 मड करोगा	भट्टीगांव पु०	भट्टीगांव पु०	58	1 भट्टीगांव पु० 2 मड करोगा	भट्टीगांव पु०	भट्टीगांव पु०
59	1 भूल कीअध्याली 2 पहर 3 सेला दुतखेला 4 सेरा	भूल कीअध्याली	भूल कीअध्याली	59	1 भूल कीअध्याली 2 पहर 3 सेला दुतखेला 4 सेरा	भूल कीअध्याली	भूल कीअध्याली
60	1 भुवनेश्वर 2 सिरतोला 3 गोठालगांव 4 नानीशीतला	भुवनेश्वर	भुवनेश्वर	60	1 भुवनेश्वर 2 सिरतोला 3 गोठालगांव 4 नानीशीतला	भुवनेश्वर	भुवनेश्वर
61	1 मनगढ 2 खन्तडी 3 भट्टीईजर	मनगढ	मनगढ	61	1 मनगढ 2 खन्तडी 3 भट्टीईजर	मनगढ	मनगढ
62	1 मन्तोली 2 काहकोट 3 बादौली 4 खेती	मन्तोली	मन्तोली	62	1 मन्तोली 2 काहकोट 3 बादौली 4 खेती	मन्तोली	मन्तोली
63	1 माछीखेत 2 लिखतड	माछीखेत	माछीखेत	63	1 माछीखेत 2 लिखतड	माछीखेत	माछीखेत
64	1 मानीपुर 2 स्पूतीआगर 3 स्पूतीटम्टा 4 चौरी	मानीपुर	मानीपुर	64	1 मानीपुर 2 स्पूतीआगर 3 स्पूतीटम्टा 4 चौरी	मानीपुर	मानीपुर
65	1 मसूरिया 2 डाडल	मसूरिया	मसूरिया	65	1 मसूरिया 2 डाडल	मसूरिया	मसूरिया
66	1 राईगडस्यारी 2 बटलागांव 3 सिमलखेत	राईगडस्यारी	राईगडस्यारी	66	1 राईगडस्यारी 2 बटलागांव 3 सिमलखेत	राईगडस्यारी	राईगडस्यारी
67	1 रावलखेत 2 इकलवागाडा 3 पनोली	रावलखेत	रावलखेत	67	1 रावलखेत 2 इकलवागाडा 3 पनोली	रावलखेत	रावलखेत
68	1 रुईनाथल 2 गंगौरा	रुईनाथल	रुईनाथल	68	1 रुईनाथल 2 गंगौरा	रुईनाथल	रुईनाथल
69	1 रीठा 2 असुर 3 रैतोली	रैतोली	रैतोली	69	1 रीठा 2 असुर 3 रैतोली	रीठा	नाम परिवर्तन रीठा
70	1 लछीमा 2 ओखरानी	लछीमा	लछीमा	70	1 लछीमा 2 ओखरानी	लछीमा	लछीमा
71	1 लिंगुरानी 2 भूनी 3 बोरखेत	लिंगुरानी	लिंगुरानी	71	1 लिंगुरानी 2 भूनी 3 बोरखेत	लिंगुरानी	लिंगुरानी
72	1 लोहाथल 2 बटलाबरौला 3 पूठागांव 4 पपस्यारी 5 द्वाली	लोहाथल	लोहाथल	72	1 लोहाथल 2 बटलाबरौला 3 पूठागांव 4 पपस्यारी 5 द्वाली	लोहाथल	लोहाथल
73	1 वर्षायत			73	1 वर्षायत		

1	2	3	4	5	6	7	8
	2 धौलकटिया 3 रिठायत 4 डुडरिया	वर्षायत	वर्षायत		2 धौलकटिया 3 रिठायत 4 डुडरिया	वर्षायत	वर्षायत
74	1 दुनखोला 2 शाहगराउ 3 नायल सकनोली	शाहगराउ	शाहगराउ	74	1 दुनखोला 2 शाहगराउ 3 नायल सकनोली	शाहगराउ	शाहगराउ
75	1 ढोलकुण्डा 2 सानीखेत 3 दिगतोली 4 पिनारी 5 हपलेत 6 बनोली मैतोला 7 बोरासांगड 8 सालीखेत	सानीखेत	सानीखेत	75	1 ढोलकुण्डा 2 सानीखेत 3 दिगतोली 4 पिनारी 5 हपलेत 6 बनोली मैतोला 7 बोरासांगड 8 सालीखेत	सानीखेत	सानीखेत
76	1 सिमायल	सिमायल	सिमायल	76	1 सिमायल	सिमायल	सिमायल
77	1 सुकल्याडी	सुकल्याडी	सुकल्याडी	77	1 सुकल्याडी	सुकल्याडी	सुकल्याडी
78	1 सुनेती 2 डुंगरी 3 आमथल 4 कसाडी 5 घघोली	सुनेती	सुनेती	78	1 सुनेती 2 डुंगरी 3 आमथल 4 कसाडी 5 घघोली	सुनेती	सुनेती
79	1 सेलीपांख 2 डुंगरीपन्त 3 रौलेना 4 नौतस 5 झुलतड	सेलीपांख	सेलीपांख	79	1 सेलीपांख 2 डुंगरीपन्त 3 रौलेना 4 नौतस 5 झुलतड	सेलीपांख	सेलीपांख
80	1 सैनर 2 कफल्टा विरग्वाली 3 सेलावन 4 ठठौली	सैनर	सैनर	80	1 सैनर 2 कफल्टा विरग्वाली 3 सेलावन 4 ठठौली	सैनर	सैनर
81	1 संगौड 2 मखौली 3 कूडी 4 मेरला 5 हलियाडोब 6 हिरमोली 7 ननेत	संगौड	संगौड	81	1 मेरला 2 मखौली 3 कूडी 4 संगौड 5 हिरमोली 6 ननेत 7 ननेत	मेरला	मेरला
82	1 हीपा 2 सिल्दो 3 बैरीगांव 4 भैसियाउडियार	हीपा	हीपा	82	1 हीपा 2 सिल्दो 3 बैरीगांव 4 भैसियाउडियार	हीपा	हीपा
83	1 थर्प 2 हडियातनाघर	हडियातनाघर	हडियातनाघर	83	1 थर्प 2 हडियातनाघर	थर्प	थर्प
84	1 हत्वालगांव 2 हजेती 3 पडियात 4 अमतड	हत्वालगांव	हत्वालगांव	84	1 हत्वालगांव 2 हजेती 3 पडियात 4 अमतड	हत्वालगांव	हत्वालगांव

क्षेत्र पंचायत का नाम— पिथौरागढ़ (विण)				जिले का नाम—पिथौरागढ़			
वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम सभा का नाम	पंचायत क्षेत्र का नाम	क्र० सं०	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम सभा का नाम	पंचायत क्षेत्र का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 आगर	आगर	आगर	1	1 आगर	आगर	आगर
2	1 इग्यार 2 टाला	इग्यार	इग्यार	2	1 इग्यार 2 टाला	इग्यार	इग्यार
3	1 उखडीसेरी 2 सुवालेख	उखडीसेरी	उखडीसेरी	3	1 उखडीसेरी 2 सुवालेख	उखडीसेरी	उखडीसेरी
4	1 उपरतोला 2 भल्या 3 मटियाल	उपरतोला	उपरतोला	4	1 उपरतोला 2 भल्या 3 मटियाल	उपरतोला	उपरतोला
5	1 ओडमाथा	ओडमाथा	ओडमाथा	5	1 ओडमाथा	ओडमाथा	ओडमाथा
6	1 कांटे 2 सिरपोली 3 बमनथल	कांटे	कांटे	6	1 कांटे 2 सिरपोली 3 बमनथल	कांटे	कांटे
7	1 कासनी	कासनी	कासनी	7	1 कासनी	कासनी	कासनी
8	1 कुसोली 2 कुसाली नयाबाद	कुसोली	कुसोली	8	1 कुसोली 2 कुसाली नयाबाद	कुसोली	कुसोली
9	1 कूचा 2 डुमना 3 चिमुसी पुरगडा	कूचा	कूचा	9	1 कूचा 2 डुमना 3 चिमुसी पुरगडा	कूचा	कूचा
10	1 खडकूभल्या 2 राडीखूटी	खडकूभल्या	खडकूभल्या	10	1 खडकूभल्या 2 राडीखूटी	खडकूभल्या	खडकूभल्या
11	1 खतीगांव 2 थामकुण्ड	खतीगांव	खतीगांव	11	1 खतीगांव 2 थामकुण्ड	खतीगांव	खतीगांव
12	1 खितोली	खितोली	खितोली	12	1 खितोली	खितोली	खितोली
13	1 गणकोट 2 पगन्ना	गणकोट	गणकोट	13	1 गणकोट 2 पगन्ना	गणकोट	गणकोट
14	1 गुरना	गुरना	गुरना	14	1 गुरना	गुरना	गुरना
15	1 गैठना 2 सैली	गैठना	गैठना	15	1 गैठना 2 सैली	गैठना	गैठना
16	1 गोगना 2 सेलग्वानी	गोगना	गोगना	16	1 गोगना 2 सेलग्वानी	गोगना	गोगना
17	1 चमाली 2 सेलभीडा	चमाली	चमाली	17	1 चमाली 2 सेलभीडा	चमाली	चमाली
18	1 चैसर 2 बदलानी 3 मैथाना	चैसर	चैसर	18	1 चैसर 2 बदलानी 3 मैथाना	चैसर	चैसर
19	1 छानापाण्डे 2 धारीगांव 3 गुरुडा	छानापाण्डे	छानापाण्डे	19	1 छानापाण्डे 2 धारीगांव 3 गुरुडा	छानापाण्डे	छानापाण्डे
20	1 छेडा	छेडा	छेडा	20	1 छेडा	छेडा	छेडा
21	1 जगतड	जगतड	जगतड	21	1 जगतड	जगतड	जगतड
22	1 जजुराली	जजुराली	जजुराली	22	1 जजुराली	जजुराली	जजुराली
23	1 जमराडी	जमराडी	जमराडी	23	1 जमराडी	जमराडी	जमराडी
24	1 जाख	जाख	जाख	24	1 जाख	जाख	जाख
25	1 झूणी	झूणी	झूणी	25	1 झूणी	झूणी	झूणी

1	2	3	4	5	6	7	8
26	1 टकाडी	टकाडी	टकाडी	26	1 टकाडी	टकाडी	टकाडी
27	1 डुंगरा 2 कुन्जच्यूरानी 3 कुचगाड	डुंगरा	डुंगरा	27	1 डुंगरा 2 कुन्जच्यूरानी 3 कुचगाड	डुंगरा	डुंगरा
28	1 डुंगरीरावल	डुंगरीरावल	डुंगरीरावल	28	1 डुंगरीरावल	डुंगरीरावल	डुंगरीरावल
29	1 डूंगाभूल 2 मिशन चण्डाक 3 गौडियागांव हल्पाटी 4 नैकिनाफुलारा लगगाबकरकटिया	डूंगाभूल	डूंगाभूल	29	1 डूंगाभूल 2 मिशन चण्डाक 3 गौडियागांव हल्पाटी 4 नैकिनाफुलारा लगगाबकरकटिया	डूंगाभूल	डूंगाभूल
30	1 तडीगांव	तडीगांव	तडीगांव	30	1 तडीगांव	तडीगांव	तडीगांव
31	1 तल्लीसार	तल्लीसार	तल्लीसार	31	1 तल्लीसार	तल्लीसार	तल्लीसार
32	1 तिलतड 2 भण्डारीगांव 3 भापला	तिलतड	तिलतड	32	1 तिलतड 2 भण्डारीगांव 3 भापला	तिलतड	तिलतड
33	1 तोलीफगाली 2 भिलौत	तोलीफगाली	तोलीफगाली	33	1 तोलीफगाली 2 भिलौत	तोलीफगाली	तोलीफगाली
34	1 थरकोट	थरकोट	थरकोट	34	1 थरकोट	थरकोट	थरकोट
35	1 दाडिमखोला	दाडिमखोला	दाडिमखोला	35	1 दाडिमखोला	दाडिमखोला	दाडिमखोला
36	1 दिगतोली लोहार 2 झुनखोली	दिगतोली	दिगतोली	36	1 दिगतोली लोहार 2 झुनखोली	दिगतोली	दिगतोली
37	1 दियूडी 2 बनखडी 3 बिचकोट भनार	दियूडी	दियूडी	37	1 दियूडी 2 बनखडी 3 बिचकोट भनार	दियूडी	दियूडी
38	1 देवतपुरचौडा	देवतपुरचौडा	देवतपुरचौडा	38	1 देवतपुरचौडा	देवतपुरचौडा	देवतपुरचौडा
39	1 देवलालगांव 2 मखोलियागांव 3 जौरासी	देवलालगांव	देवलालगांव	39	1 देवलालगांव 2 मखोलियागांव 3 जौरासी	देवलालगांव	देवलालगांव
40	1 धरासीचमेला 2 कफरकटिया 3 मेल्लू	धरासीचमेला	धरासीचमेला	40	1 धरासीचमेला 2 कफरकटिया 3 मेल्लू	धरासीचमेला	धरासीचमेला
41	1 धारीजोशी 2 हयूपानी	धारीजोशी	धारीजोशी	41	1 धारीजोशी 2 हयूपानी	धारीजोशी	धारीजोशी
42	1 धारीधमौड	धारीधमौड	धारीधमौड	42	1 धारीधमौड	धारीधमौड	धारीधमौड
43	1 नाघर 2 नगथर	नाघर	नाघर	43	1 नाघर 2 नगथर	नाघर	नाघर
44	1 निशनी 2 सन्तरापोखरा	निशनी	निशनी	44	1 निशनी 2 सन्तरापोखरा	निशनी	निशनी
45	1 नैनीभनार	नैनीभनार	नैनीभनार	45	1 नैनीभनार	नैनीभनार	नैनीभनार
46	1 नैनीमहर	नैनीमहर	नैनीमहर	46	1 नैनीमहर	नैनीमहर	नैनीमहर
47	1 पण्डा 2 देवकटिया	पण्डा	पण्डा	47	1 पण्डा 2 देवकटिया	पण्डा	पण्डा
48	1 पपदेव	पपदेव	पपदेव	48	1 पपदेव	पपदेव	पपदेव

1	2	3	4	5	6	7	8
	1 पाभैं	पाभैं	पाभैं		1 पाभैं	पाभैं	पाभैं
49	2 कनारी			49	2 कनारी		
50	1 पाभैंवल्लिया	पाभैंवल्लिया	पाभैंवल्लिया	50	1 पाभैंवल्लिया	पाभैंवल्लिया	पाभैंवल्लिया
51	1 पाली	पाली	पाली	51	1 पाली	पाली	पाली
52	1 पुनेडीमहर	पुनेडीमहर	पुनेडीमहर	52	1 पुनेडीमहर	पुनेडीमहर	पुनेडीमहर
53	1 पुरान	पुरान	पुरान	53	1 पुरान	पुरान	पुरान
54	1 पौण	पौण	पौण	54	1 पौण	पौण	पौण
	1 बकसिल	बकसिल	बकसिल		1 बकसिल	बकसिल	
55	2 जमतडी			55	2 जमतडी		बकसिल
56	1 बुडौली	बडौली	बडौली	56	1 बुडौली	बडौली	बडौली
57	1 बालाकोट	बालाकोट	बालाकोट	57	1 बालाकोट	बालाकोट	बालाकोट
	1 बांसमैताली	बांसमैताली	बांसमैताली		1 बांसमैताली	बांसमैताली	
58	2 डुमैत			58	2 डुमैत		बांसमैताली
	1 बास्ते	बास्ते	बास्ते		1 बास्ते	बास्ते	
59	2 डुगरी			59	2 डुगरी		बास्ते
	1 विषाड	विषाड	विषाड		1 विषाड	विषाड	
60	2 कुन्जचमेलिया			60	2 कुन्जचमेलिया		विषाड
	3 सरडा				3 सरडा		
	4 मछिनाखोली				4 मछिनाखोली		
61	1 बेडा	बेडा	बेडा	61	1 बेडा	बेडा	बेडा
	1 भट्यूडा	भट्यूडा	भट्यूडा		1 भट्यूडा	भट्यूडा	
62	2 मसपाटी			62	2 मसपाटी		भट्यूडा
	3 धिगारखोला				3 धिगारखोला		
63	1 भुरमुनी	भुरमुनी	भुरमुनी	63	1 भुरमुनी	भुरमुनी	
	2 सनकटिया				2 सनकटिया		भुरमुनी
	1 मझेडा समौला	मझेडा समौला	मझेडा समौला		1 मझेडा समौला	मझेडा समौला	
64	2 कांटे			64	2 कांटे		मझेडा समौला
	3 नाकोट				3 नाकोट		
	4 धारापानी				4 धारापानी		
	5 रतवाली				5 रतवाली		
	6 बगौर				6 बगौर		
	1 मल्लीसीम	मल्लीसीम	मल्लीसीम		1 मल्लीसीम	मल्लीसीम	
65	2 तल्लीसीम			65	2 तल्लीसीम		मल्लीसीम
	3 नैकिना नायक				3 नैकिना नायक		
66	1 मलान	मलान	मलान	66	1 मलान	मलान	मलान
	1 मांसो	मांसो	मांसो		1 मांसो	मांसो	
67	2 रोडागांव			67	2 रोडागांव		मांसो
	1 मेलडुगरी	मेलडुगरी	मेलडुगरी		1 मेलडुगरी	मेलडुगरी	
68	2 थली			68	2 थली		मेलडुगरी
69	1 रावलगांव	रावलगांव	रावलगांव	69	1 रावलगांव	रावलगांव	रावलगांव
	1 रावलगांव	रावलगांव	रावलगांव		1 रावलगांव	रावलगांव	
70	2 डुण्डूखोला			70	2 डुण्डूखोला		रावलगांव

1	2	3	4	5	6	7	8
71	1 रोडी 2 डुंगरी पाण्डे 3 नरगोली 4 हडैती 5 रोडीमध्ये सिमखाली	रोडी	रोडी	71	1 रोडी 2 डुंगरी पाण्डे 3 नरगोली 4 हडैती 5 रोडीमध्ये सिमखाली	रोडी	रोडी
72	1 लेलू 2 दिगरानी	लेलू	लेलू	72	1 लेलू 2 दिगरानी	लेलू	लेलू
73	1 सटगल	सटगल	सटगल	73	1 सटगल	सटगल	सटगल
74	1 सनघर 2 सैनकनला	सनघर	सनघर	74	1 सनघर 2 सैनकनला	सनघर	सनघर
75	1 स्याला 2 खितोली 3 बेडेउ 4 पतलगांव 5 नैकिना पाण्डे	स्याला	स्याला	75	1 स्याला 2 खितोली 3 बेडेउ 4 पतलगांव 5 नैकिना पाण्डे	स्याला	स्याला
76	1 स्यूनी	स्यूनी	स्यूनी	76	1 स्यूनी	स्यूनी	स्यूनी
77	1 सिन्चोडा 2 बुडाली 3 सिन्चोली	सिन्चोडा	सिन्चोडा	77	1 सिन्चोडा 2 बुडाली 3 सिन्चोली	सिन्चोडा	सिन्चोडा
78	1 सिलपाटा	सिलपाटा	सिलपाटा	78	1 सिलपाटा	सिलपाटा	सिलपाटा
79	1 सिलौली	सिलौली	सिलौली	79	1 सिलौली	सिलौली	सिलौली
80	1 सुजई 2 खूनी	सुजई	सुजई	80	1 सुजई 2 खूनी	सुजई	सुजई
81	1 सुवाकोट	सुवाकोट	सुवाकोट	81	1 सुवाकोट	सुवाकोट	सुवाकोट
82	1 सेरी 2 मडनयाबाद	सेरी	सेरी	82	1 सेरी 2 मडनयाबाद	सेरी	सेरी
83	1 सेरीकाण्डा	सेरीकाण्डा	सेरीकाण्डा	83	1 सेरीकाण्डा	सेरीकाण्डा	सेरीकाण्डा
84	1 सेरीबाराकोट 2 बडखालेख	सेरीबाराकोट	सेरीबाराकोट	84	1 सेरीबाराकोट 2 बडखालेख	सेरीबाराकोट	सेरीबाराकोट
85	1 हुडैती	हुडैती	हुडैती	85	1 हुडैती	हुडैती	हुडैती

क्षेत्र पंचायत का नाम- धारचूला				जिले का नाम-पिथौरागढ़			
वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम सभा का नाम	पंचायत क्षेत्र का नाम	क्र० सं०	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम सभा का नाम	पंचायत क्षेत्र का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1-उमचिया 2-तेजम 3-वतन	उमचिया	उमचिया	1	1-उमचिया 2-तेजम 3-वतन	उमचिया	उमचिया
2	1-कुटी	कुटी	कुटी	2	1-कुटी	कुटी	कुटी
3	1-कालिका	कालिका	कालिका	3	1-कालिका	कालिका	कालिका
4	1-किमखोला	किमखोला	किमखोला	4	1-किमखोला	किमखोला	किमखोला
5	1-कनार	कनार	कनार	5	1-कनार	कनार	कनार
6	1-खेत	खेत	खेत	6	1-खेत	खेत	खेत
7	1-खेला	खेला	खेला	7	1-खेला	खेला	खेला
8	1-खुमती	खुमती	खुमती	8	1-खुमती	खुमती	खुमती
9	1-गुंजी	गुंजी	गुंजी	9	1-गुंजी	गुंजी	गुंजी
10	1-गब्यांग	गब्यांग	गब्यांग	10	1-गब्यांग	गब्यांग	गब्यांग

1	2	3	4	5	6	7	8
11	1-गो 2-खिमलिंग	गो	गो	11	1-गो2-खिमलिंग	गो	गो
12	1-गर्गुवा	गर्गुवा	गर्गुवा	12	1-गर्गुवा	गर्गुवा	गर्गुवा
13	1-गलाती	गलाती	गलाती	13	1-गलाती	गलाती	गलाती
14	1-चल	चल	चल	14	1-चल	चल	चल
15	1-छल्माछिलासों 2-पुनलाभटका	छल्माछिलासों	छल्माछिलासों	15	1-छल्माछिलासों 2-पुनलाभटका	छल्माछिलासों	छल्माछिलासों
16	1-छारछुम	छारछुम	छारछुम	16	1-छारछुम	छारछुम	छारछुम
17	1-जयकोट	जयकोट	जयकोट	17	1-जयकोट	जयकोट	जयकोट
18	1-जिप्ती2-गोलागाड़	जिप्ती	जिप्ती	18	1-जिप्ती2-गोलागाड़	जिप्ती	जिप्ती
19	1-ज्योतिपांगू 2-सांगड़ी ढकढोना	ज्योतिपांगू	ज्योतिपांगू	19	1-ज्योतिपांगू 2-सांगड़ी ढकढोना	ज्योतिपांगू	ज्योतिपांगू
20	1-जम्कू2-लुम	जम्कू	जम्कू	20	1-जम्कू2-लुम	जम्कू	जम्कू
21	1-जुम्मा	जुम्मा	जुम्मा	21	1-जुम्मा	जुम्मा	जुम्मा
22	1-जाराजिबली	जाराजिबली	जाराजिबली	22	1-जाराजिबली	जाराजिबली	जाराजिबली
23	1-डुंगातोली	डुंगातोली	डुंगातोली	23	1-डुंगातोली	डुंगातोली	डुंगातोली
24	1-तांकुल	तांकुल	तांकुल	24	1-तांकुल	तांकुल	तांकुल
25	1-तिदांग	तिदांग	तिदांग	25	1-तिदांग	तिदांग	तिदांग
26	1-तोली	तोली	तोली	26	1-तोली	तोली	तोली
27	1-दर	दर	दर	27	1-दर	दर	दर
28	1-दातू	दातू	दातू	28	1-दातू	दातू	दातू
29	1-दुग्तू	दुग्तू	दुग्तू	29	1-दुग्तू	दुग्तू	दुग्तू
30	1-दूतीबगड़ 2-थाम	दूतीबगड़	दूतीबगड़	30	1-दूतीबगड़2-थाम	दूतीबगड़	दूतीबगड़
31	1-धारचूला देहात	धारचूला देहात	धारचूला देहात	31	1-धारचूला देहात	धारचूला देहात	धारचूला देहात
32	1-धारपांगू 2-तंतागाँवरौतो 3-गुमकाना	धारपांगू	धारपांगू	32	1-धारपांगू 2-तंतागाँवरौतो 3-गुमकाना	धारपांगू	धारपांगू
33	1-नागलिंग	नागलिंग	नागलिंग	33	1-नागलिंग	नागलिंग	नागलिंग
34	1-न्यू2-सोबला	न्यू	न्यू	34	1-न्यू2-सोबला	न्यू	न्यू
35	1-नपलछ्यू	नपलछ्यू	नपलछ्यू	35	1-नपलछ्यू	नपलछ्यू	नपलछ्यू
36	1-नावी	नावी	नावी	36	1-नावी	नावी	नावी
37	1-पांगला	पांगला	पांगला	37	1-पांगला	पांगला	पांगला
38	1-पय्यांपोड़ी	पय्यांपोड़ी	पय्यांपोड़ी	38	1-पय्यांपोड़ी	पय्यांपोड़ी	पय्यांपोड़ी
39	1-फिलम	फिलम	फिलम	39	1-फिलम	फिलम	फिलम
40	1-बरम	बरम	बरम	40	1-बरम	बरम	बरम
41	1-बंगापानी	बंगापानी	बंगापानी	41	1-बंगापानी	बंगापानी	बंगापानी
42	1-बालिंग	बालिंग	बालिंग	42	1-बालिंग	बालिंग	बालिंग
43	1-बुंगबुंग	बुंगबुंग	बुंगबुंग	43	1-बुंगबुंग	बुंगबुंग	बुंगबुंग
44	1-बूदी	बूदी	बूदी	44	1-बूदी	बूदी	बूदी
45	1-बलुवाकोट	बलुवाकोट	बलुवाकोट	45	1-बलुवाकोट	बलुवाकोट	बलुवाकोट
46	1-बौन	बौन	बौन	46	1-बौन	बौन	बौन
47	1-बौंगलिंग	बौंगलिंग	बौंगलिंग	47	1-बौंगलिंग	बौंगलिंग	बौंगलिंग
48	1-मेतली	मेतली	मेतली	48	1-मेतली	मेतली	मेतली
49	1-मार्छा	मार्छा	मार्छा	49	1-मार्छा	मार्छा	मार्छा
50	1-रमतोली	रमतोली	रमतोली	50	1-रमतोली	रमतोली	रमतोली
51	1-रांथी	रांथी	रांथी	51	1-रांथी	रांथी	रांथी

1	2	3	4	5	6	7	8
52	1-रुंग	रुंग	रुंग	52	1-रुंग	रुंग	रुंग
53	1-रौंगकौंग	रौंगकौंग	रौंगकौंग	53	1-रौंगकौंग	रौंगकौंग	रौंगकौंग
54	1-लुम्ती	लुम्ती	लुम्ती	54	1-लुम्ती	लुम्ती	लुम्ती
55	1-सिखा	सिखा	सिखा	55	1-सिखा	सिखा	सिखा
56	1-सिदांग	सिदांग	सिदांग	56	1-सिदांग	सिदांग	सिदांग
57	1-सोसा	सोसा	सोसा	57	1-सोसा	सोसा	सोसा
58	1-सीपू	सीपू	सीपू	58	1-सीपू	सीपू	सीपू
59	1-सेला	सेला	सेला	59	1-सेला	सेला	सेला
60	1-सुवा	सुवा	सुवा	60	1-सुवा	सुवा	सुवा
61	1-स्यांकुरी	स्यांकुरी	स्यांकुरी	61	1-स्यांकुरी	स्यांकुरी	स्यांकुरी
62	1-हिमखोला	हिमखोला	हिमखोला	62	1-हिमखोला	हिमखोला	हिमखोला

क्षेत्र पंचायत का नाम-डीडीहाट				जिले का नाम-पिथौरागढ़			
वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम सभा का नाम	पंचायत क्षेत्र का नाम	क्र० सं०	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम सभा का नाम	पंचायत क्षेत्र का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.अजेड़ा तकराड़ी 2.अजेड़ा भरपाटी	अजेड़ा-तकराड़ी	अजेड़ा-तकराड़ी	1	1.अजेड़ा तकराड़ी 2.अजेड़ा भरपाटी	अजेड़ा-तकराड़ी	अजेड़ा-तकराड़ी
2	1.अटलगांव	अटलगांव	अटलगांव	2	1.अटलगांव	अटलगांव	अटलगांव
3	1.अठखेत 2.ढनौला	अठखेत	अठखेत	3	1.अठखेत 2.ढनौला	अठखेत	अठखेत
4	1.अल्मियागांव 2.ओखलगांव 3.डुगरी	अल्मियागांव	अल्मियागांव	4	1.अल्मियागांव 2.ओखलगांव 3.डुगरी	अल्मियागांव	अल्मियागांव
5	1.ओगला	ओगला	ओगला	5	1.ओगला	ओगला	ओगला
6	1.काण्डामानसिंह 2.झुसियाकाण्डा	काण्डामानसिंह	काण्डामानसिंह	6	1.काण्डामानसिंह 2.झुसियाकाण्डा	काण्डामानसिंह	काण्डामानसिंह
7	1.काण्डे	काण्डे	काण्डे	7	1.काण्डे	काण्डे	काण्डे
8	1.कुकरीली 2.दुनेरा	कुकरीली	कुकरीली	8	1.कुकरीली 2.दुनेरा	कुकरीली	कुकरीली
9	1.कुर्निया 2.पन्थाली 3.घनघूरा	कुर्निया	कुर्निया	9	1.कुर्निया 2.पन्थाली 3.घनघूरा	कुर्निया	कुर्निया
10	1.कुमालगांव 2.राकड़थल 3.तड़ीगांव	कुमालगांव	कुमालगांव	10	1.कुमालगांव 2.राकड़थल 3.तड़ीगांव	कुमालगांव	कुमालगांव
11	1.कौलीकन्याल	कौलीकन्याल	कौलीकन्याल	11	1.कौलीकन्याल	कौलीकन्याल	कौलीकन्याल
12	1.खीरी 2.विचकोट 3.गडेरादेउपा 4.ढोलाघर	खीरी	खीरी	12	1.खीरी 2.विचकोट 3.गडेरादेउपा 4.ढोलाघर	खीरी	खीरी
13	1.खेतारकन्याल 2.खेतारभण्डारी	खेतारकन्याल	खेतारकन्याल	13	1.खेतारकन्याल 2.खेतारभण्डारी	खेतारकन्याल	खेतारकन्याल
14	1.खोली चर्मा 2.जमज्यालीगांव	खोली चर्मा	खोली चर्मा	14	1.खोली चर्मा 2.जमज्यालीगांव	खोली चर्मा	खोली चर्मा

1	2	3	4	5	6	7	8
15	1. खोलीमाली 2. ग्युनौली 3. दड़मोली	खोलीमाली	खोलीमाली	15	1. खोलीमाली 2. ग्युनौली 3. दड़मोली	खोलीमाली	खोलीमाली
16	1. गराली	गराली	गराली	16	1. गराली	गराली	गराली
17	1. गोल	गोल	गोल	17	1. गोल	गोल	गोल
18	1. गोबराड़ी 2. घमरौली	गोबराड़ी	गोबराड़ी	18	1. गोबराड़ी 2. घमरौली	गोबराड़ी	गोबराड़ी
19	1. धिंगतड़ 2. चल्मोड़ी	धिंगतड़	धिंगतड़	19	1. धिंगतड़ 2. चल्मोड़ी	धिंगतड़	धिंगतड़
20	1. धिमाली	धिमाली	धिमाली	20	1. धिमाली	धिमाली	धिमाली
21	1. चामा	चामा	चामा	21	1. चामा	चामा	चामा
22	1. चिटगालगांव 2. तड़खेत 3. काण्डा तल्ला 4. काण्डा मल्ला	चिटगालगांव	चिटगालगांव	22	1. चिटगालगांव 2. तड़खेत 3. काण्डा तल्ला 4. काण्डा मल्ला	चिटगालगांव	चिटगालगांव
23	1. चुपड़ाखेत	चुपड़ाखेत	चुपड़ाखेत	23	1. चुपड़ाखेत	चुपड़ाखेत	चुपड़ाखेत
24	1. जमतड़	जमतड़	जमतड़	24	1. जमतड़	जमतड़	जमतड़
25	1. जाखधौलेत 2. भूमियाथल 3. आकोट 4. औड़गांव	जाखधौलेत	जाखधौलेत	25	1. जाखधौलेत 2. भूमियाथल 3. आकोट 4. औड़गांव	जाखधौलेत	जाखधौलेत
26	1. दुगेती 2. दुगा	दुगेती	दुगेती	26	1. दुगेती 2. दुगा	दुगेती	दुगेती
27	1. तल्ली भैस्यूड़ी 2. मल्ली भैस्यूड़ी	तल्ली भैस्यूड़ी	तल्ली भैस्यूड़ी	27	1. तल्ली भैस्यूड़ी 2. मल्ली भैस्यूड़ी	तल्ली भैस्यूड़ी	तल्ली भैस्यूड़ी
28	1. तल्लीमिथी 2. मिथीविनिया 3. सिनक्वाली 4. गरसौली	तल्लीमिथी	तल्लीमिथी	28	1. तल्लीमिथी 2. मिथीविनिया 3. सिनक्वाली 4. गरसौली	तल्लीमिथी	तल्लीमिथी
29	1. तिलाड़ी 2. दुगतड़ 3. नालीदेउपा	तिलाड़ी	तिलाड़ी	29	1. तिलाड़ी 2. दुगतड़ 3. नालीदेउपा	तिलाड़ी	तिलाड़ी
30	1. तुर्गौली 2. ग्वीरघटीगाड़ 3. पतेत 4. बसौरा	तुर्गौली	तुर्गौली	30	1. तुर्गौली 2. ग्वीरघटीगाड़ 3. पतेत 4. बसौरा	तुर्गौली	तुर्गौली
31	1. तोली चुफात 2. हड़खोला 3. बन्दरलीमा	तोली चुफात	तोली चुफात	31	1. तोली चुफात 2. हड़खोला 3. बन्दरलीमा	तोली चुफात	तोली चुफात
32	1. द्यौकली 2. करेला 3. चनकोट	द्यौकली	द्यौकली	32	1. द्यौकली 2. करेला 3. चनकोट	द्यौकली	द्यौकली
33	1. दिगौटी 2. घरतोली 3. चोपड़ा	दिगौटी	दिगौटी	33	1. दिगौटी 2. घरतोली 3. चोपड़ा	दिगौटी	दिगौटी
34	1. दौली कौली 2. पमतोड़ी 3. टोपराधार	दौली कौली	दौली कौली	34	1. दौली कौली 2. पमतोड़ी 3. टोपराधार	दौली कौली	दौली कौली
35	1. दूनाकोट	दूनाकोट	दूनाकोट	35	1. दूनाकोट	दूनाकोट	दूनाकोट

1	2	3	4	5	6	7	8
36	1. दुर्लख 2. तुलागांव	दुर्लख	दुर्लख	36	1. दुर्लख 2. तुलागांव	दुर्लख	दुर्लख
37	1. ननकूड़ी 2. महतगांव	ननकूड़ी	ननकूड़ी	37	1. ननकूड़ी 2. महतगांव	ननकूड़ी	ननकूड़ी
38	1. ननपापों 2. पन्थगांव	ननपापों	ननपापों	38	1. ननपापों 2. पन्थगांव	ननपापों	ननपापों
39	1. पमस्यारी 2. खोजा	पमस्यारी	पमस्यारी	39	1. पमस्यारी 2. खोजा	पमस्यारी	पमस्यारी
40	1. बगजीबला 2. लामाघर	बगजीबला	बगजीबला	40	1. बगजीबला 2. लामाघर	बगजीबला	बगजीबला
41	1. बजानी	बजानी	बजानी	41	1. बजानी	बजानी	बजानी
42	बलतिर धामीगांव	बलतिर	बलतिर	42	बलतिर धामीगांव	बलतिर	बलतिर
43	1. बांकू	बांकू	बांकू	43	1. बांकू	बांकू	बांकू
44	1. बोराबूंगा 2. पारीसेरा	बोराबूंगा	बोराबूंगा	44	1. बोराबूंगा 2. पारीसेरा	बोराबूंगा	बोराबूंगा
45	1. बरमबचकूड़ी	बरमबचकूड़ी	बरमबचकूड़ी	45	1. बरमबचकूड़ी	बरमबचकूड़ी	बरमबचकूड़ी
46	1. बोरागांव 2. बायगांव 3. महरगाड़ी	बोरागांव	बोरागांव	46	1. बोरागांव 2. बायगांव 3. महरगाड़ी	बोरागांव	बोरागांव
47	1. भालूउडियार 2. नाली विसराल 3. जुबरा	भालूउडियार	भालूउडियार	47	1. भालूउडियार 2. नाली विसराल 3. जुबरा	भालूउडियार	भालूउडियार
48	1. भनड़ा 2. बलगड़ी	भनड़ा	भनड़ा	48	1. भनड़ा 2. बलगड़ी	भनड़ा	भनड़ा
49	1. भड़गांव 2. अटक्वाली 3. करौली	भड़गांव	भड़गांव	49	1. भड़गांव 2. अटक्वाली 3. करौली	भड़गांव	भड़गांव
50	1. मड़ 2. मझंडा खितोला 3. छलौड़ी 4. नायल 5. फतौड़ी 6. बड़ैत 7. कंडेरा	मड़	मड़	50	1. मड़ 2. मझंडा खितोला 3. छलौड़ी 4. नायल 5. फतौड़ी 6. बड़ैत 7. कंडेरा	मड़	मड़
51	1. मस्मोली 2. चलियागांव 3. भकुण्डा	मस्मोली	मस्मोली	51	1. मस्मोली 2. चलियागांव 3. भकुण्डा	मस्मोली	मस्मोली
52	1. मालाझूला	मालाझूला	मालाझूला	52	1. मालाझूला	मालाझूला	मालाझूला
53	1. रानीखेत 2. नौलियागांव	रानीखेत	रानीखेत	53	1. रानीखेत 2. नौलियागांव	रानीखेत	रानीखेत
54	1. मल्लीमिर्धी 2. लधड़ा 3. कासनदेव	लधड़ा	मल्लीमिर्धी	54	1. मल्लीमिर्धी 2. लधड़ा 3. कासनदेव	लधड़ा	मल्लीमिर्धी
55	1. लखतीगांव 2. बलना	लखतीगांव	लखतीगांव	55	1. लखतीगांव 2. बलना	लखतीगांव	लखतीगांव
56	1. लीमाभाट 2. नाखोली	लीमाभाट	लीमाभाट	56	1. लीमाभाट 2. नाखोली	लीमाभाट	लीमाभाट

1	2	3	4	5	6	7	8
57	1.लेजम 2.खितौली 3.गडेरापन्त 4.चामीखेत 5.भनारकोट 6.सौकियाथल	लेजम	लेजम	57	1.लेजम 2.खितौली 3.गडेरापन्त 4.चामीखेत 5.भनारकोट 6.सौकियाथल	लेजम	लेजम
58	1.लोपार्ती 2.आटे 3.देवली 4.रजरेत	लोपार्ती	लोपार्ती	58	1.लोपार्ती 2.आटे 3.देवली 4.रजरेत	लोपार्ती	लोपार्ती
59	1.वर्नाऐरी 2.रैतौली	वर्नाऐरी	वर्नाऐरी	59	1.वर्नाऐरी 2.रैतौली	वर्नाऐरी	वर्नाऐरी
60	1.वत्यूली 2.सिमार 3.सौण	वत्यूली	वत्यूली	60	1.वत्यूली 2.सिमार 3.सौण	वत्यूली	वत्यूली
61	1.वर्षायत 2.सननखान 3.डुगरीगाड़ा 4.पुनीगांव	वर्षायत	वर्षायत	61	1.वर्षायत 2.सननखान 3.डुगरीगाड़ा 4.पुनीगांव	वर्षायत	वर्षायत
62	1.विनायक 2.गडेश जोशी	विनायक	विनायक	62	1.विनायक 2.गडेश जोशी	विनायक	विनायक
63	1.साता 2.भूलगांव	साता	साता	63	1.साता 2.भूलगांव	साता	साता
64	1.सत्यालगांव	सत्यालगांव	सत्यालगांव	64	1.सत्यालगांव	सत्यालगांव	सत्यालगांव
65	1.सौगांव 2.गैराड़ 3.भेलकूड़ा	सौगांव	सौगांव	65	1.सौगांव 2.गैराड़ 3.भेलकूड़ा	सौगांव	सौगांव
66	1.सेरासौनाली 2.पाराकोट	सेरासौनाली	सेरासौनाली	66	1.सेरासौनाली 2.पाराकोट	सेरासौनाली	सेरासौनाली
67	1.सिटौली 2.लौहारगांव 3.धनियाखान	सिटौली	सिटौली	67	1.सिटौली 2.लौहारगांव 3.धनियाखान	सिटौली	सिटौली
68	1.स्याल्वे 2.चमौली 3.खोल्टा	स्याल्वे	स्याल्वे	68	1.स्याल्वे 2.चमौली 3.खोल्टा	स्याल्वे	स्याल्वे
69	1.हचीला 2.सुप्या	हचीला	हचीला	69	1.हचीला 2.सुप्या	हचीला	हचीला
70	1.हाटथर्प 2.हाटकैणी	हाटथर्प	हाटथर्प	70	1.हाटथर्प 2.हाटकैणी	हाटथर्प	हाटथर्प
71	1.हुनेरा 2.हुम्कापीटा	हुनेरा	हुनेरा	71	हुनेरा 2.हुम्कापीटा	हुनेरा	हुनेरा

क्षेत्र पंचायत का नाम-कनालीछीना				जिले का नाम-पिथौरागढ़			
वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम सभा का नाम	पंचायत क्षेत्र का नाम	क्र० सं०	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम सभा का नाम	पंचायत क्षेत्र का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.अगन्या 2.ओलीगांव 3.विडरा	अगन्या	अगन्या	1	1.अगन्या 2.ओलीगांव 3.विडरा	अगन्या	अगन्या

1	2	3	4	5	6	7	8
2	1.अमृतडी 2.रणुवा	अमृतडी	अमृतडी	2	1.अमृतडी 2.रणुवा	अमृतडी	अमृतडी
3	1.आणागांव	आणागांव	आणागांव	3	1.आणागांव	आणागांव	आणागांव
4	1.ओझातल्ला 2.दुगालगांव 3.पथरौली	ओझातल्ला	ओझातल्ला	4	1.ओझातल्ला 2.दुगालगांव 3.पथरौली	ओझातल्ला	ओझातल्ला
5	1.ओझामल्ला 2.गणाई 3.सिरोली	ओझामल्ला	ओझामल्ला	5	1.ओझामल्ला 2.गणाई 3.सिरोली	ओझामल्ला	ओझामल्ला
6	1.औलतडी 2.पारतडी	औलतडी	औलतडी	6	1.औलतडी 2.पारतडी	औलतडी	औलतडी
7	1.उसैल	उसैल	उसैल	7	1.उसैल	उसैल	उसैल
8	1.उडई 2.क्षत्रीगांव 3.नैनी 4.ओलीगैर (गैर आबाद)	उडई	उडई	8	1.उडई 2.क्षत्रीगांव 3.नैनी 4.ओलीगैर (गैर आबाद)	उडई	उडई
9	1.कचना 2.पण्डा 3.पेटखोला	कचना	कचना	9	1.कचना 2.पण्डा 3.पेटखोला	कचना	कचना
10	1.कण्डाली 2.रतोली 3.बल्यानीचौरा	कण्डाली	कण्डाली	10	1.कण्डाली 2.रतोली 3.बल्यानीचौरा	कण्डाली	कण्डाली
11	1.कमतोली	कमतोली	कमतोली	11	1.कमतोली	कमतोली	कमतोली
12	2.कूटा 3.बसौरा	कूटा	कूटा	12	2.कूटा 3.बसौरा	कूटा	कूटा
13	1.कोटली 2.थली 3.अमाली 4.कैशाली 5.गैडालीचर्मा	कोटली	कोटली	13	1.कोटली 2.थली 3.अमाली 4.कैशाली 5.गैडालीचर्मा	कोटली	कोटली
14	1.काणाधार 2.मलाननाडू	काणाधार	काणाधार	14	1.काणाधार 2.मलाननाडू	काणाधार	काणाधार
15	1.कापडीगांव 2.बजेत	कापडीगांव	कापडीगांव	15	1.कापडीगांव 2.बजेत	कापडीगांव	कापडीगांव
16	1.कुसैल	कुसैल	कुसैल	16	1.कुसैल	कुसैल	कुसैल
17	1.खनफर 2.मैस्यूडी 3.खनाली 4.दन्तोली	खनफर	खनफर	17	1.मैस्यूडी 2.खनफर 3.खनाली 4.दन्तोली	मैस्यूडी	नाम परिवर्तन मैस्यूडी
18	1.ख्यातडी	ख्यातडी	ख्यातडी	18	1.ख्यातडी	ख्यातडी	ख्यातडी
19	1.ख्याकोट 2.बगना 3.सितोली 4.तोलीगांव	ख्याकोट	ख्याकोट	19	1.ख्याकोट 2.बगना 3.सितोली 4.तोलीगांव	ख्याकोट	ख्याकोट
20	1.खोलियागांव 2.हेल्पिया 3.धौलकोट	खोलियागांव	खोलियागांव	20	1.खोलियागांव 2.हेल्पिया 3.धौलकोट	खोलियागांव	खोलियागांव
21	1.गर्जिया 2.चमलेख	गर्जिया	गर्जिया	21	1.गर्जिया 2.चमलेख	गर्जिया	गर्जिया

1	2	3	4	5	6	7	8
22	1.गांजरी 2.रुनडा	गांजरी	गांजरी	22	1.गांजरी 2.रुनडा	गांजरी	गांजरी
23	1.गुडौली	गुडौली	गुडौली	23	1.गुडौली	गुडौली	गुडौली
24	1.गेडालीनाडू 2.चनौली	गेडालीनाडू	गेडालीनाडू	24	1.गेडालीनाडू 2.चनौली	गेडालीनाडू	गेडालीनाडू
25	1.धिंघरानी	धिंघरानी	धिंघरानी	25	1.धिंघरानी	धिंघरानी	धिंघरानी
26	1.चमडूंगरी 2.दौलानी	चमडूंगरी	चमडूंगरी	26	1.चमडूंगरी 2.दौलानी	चमडूंगरी	चमडूंगरी
27	1.चमू 2.खोलासन	चमू	चमू	27	1.चमू 2.खोलासन	चमू	चमू
28	1.चौकी 2.नैनी 3.दौला	चौकी	चौकी	28	1.चौकी 2.नैनी 3.दौला	चौकी	चौकी
29	1.चौपाता	चौपाता	चौपाता	29	1.चौपाता	चौपाता	चौपाता
30	1.चौसाल	चौसाल	चौसाल	30	1.चौसाल	चौसाल	चौसाल
31	1.जमतडी	जमतडी	जमतडी	31	1.जमतडी	जमतडी	जमतडी
32	1.जिनगांल 2.छिपछिपया 3.लगगाजमतड	जिनगांल	जिनगांल	32	1.जिनगांल 2.छिपछिपया 3.लगगाजमतड	जिनगांल	जिनगांल
33	1.जेठीगांव 2.मझेली	जेठीगांव	जेठीगांव	33	1.जेठीगांव 2.मझेली	जेठीगांव	जेठीगांव
34	1.जोग्यूडा 2.बगडीहाट 3.भेलिया 4.सेरा	जोग्यूडा	जोग्यूडा	34	1.बगडीहाट 2.जोग्यूडा 3.भेलिया 4.सेरा	बगडीहाट	नाम परिवर्तन बगडीहाट
35	1.डौडा	डौडा	डौडा	35	1.डौडा	डौडा	डौडा
36	1.डांगटी	डांगटी	डांगटी	36	1.डांगटी	डांगटी	डांगटी
37	1.डूंगरा 2.पस्मा 3.डोकूना 4.कनेडी 5.घटयूडी	डूंगरा	डूंगरा	37	1.डूंगरा 2.पस्मा 3.डोकूना 4.कनेडी 5.घटयूडी	डूंगरा	डूंगरा
38	1.डूंगरी 2.समेती	डूंगरी	डूंगरी	38	1.डूंगरी 2.समेती	डूंगरी	डूंगरी
39	1.डूण्डू 2.तल्लीसांगडी 3.मल्लीसांगडी 4.चामीनाडू	डूण्डू	डूण्डू	39	1.डूण्डू 2.तल्लीसांगडी 3.मल्लीसांगडी 4.चामीनाडू	डूण्डू	डूण्डू
40	1.ढढखोला	ढढखोला	ढढखोला	40	1.ढढखोला	ढढखोला	ढढखोला
41	1.तीतरी 2.चमतौली	तीतरी	तीतरी	41	1.तीतरी 2.चमतौली	तीतरी	तीतरी
42	1.थालगांव 2.भण्डारीगांव	थालगांव	थालगांव	42	1.थालगांव 2.भण्डारीगांव	थालगांव	थालगांव
43	1.द्वालीसेरा	द्वालीसेरा	द्वालीसेरा	43	1.द्वालीसेरा	द्वालीसेरा	द्वालीसेरा
44	1.देवल	देवल	देवल	44	1.देवल	देवल	देवल
45	1.दिगरामुवानी 2.मुगरीली	दिगरामुवानी	दिगरामुवानी	45	1.दिगरामुवानी 2.मुगरीली	दिगरामुवानी	दिगरामुवानी
46	1.दिगरा 2.पत्थरकोटमल्ला 3.पत्थरकोटमल्ला	दिगरा	दिगरा	46	1.दिगरा 2.पत्थरकोटमल्ला 3.पत्थरकोटमल्ला	दिगरा	दिगरा

1	2	3	4	5	6	7	8
47	1.छोगडा	छोगडा	छोगडा	47	1.छोगडा	छोगडा	छोगडा
48	1.धुरौली	धुरौली	धुरौली	48	1.धुरौली	धुरौली	धुरौली
49	1.नखनौली	नखनौली	नखनौली	49	1.नखनौली	नखनौली	नखनौली
50	1.नगरोडा 2.म्योली 3.धौनखौली	नगरोडा	नगरोडा	50	1.नगरोडा 2.म्योली 3.धौनखौली	नगरोडा	नगरोडा
51	1.नरेत 2.पन्तगांव 3.नामक (गैर आबाद)	नरेत	नरेत	51	1.नरेत 2.पन्तगांव 3.नामक (गैर आबाद)	नरेत	नरेत
52	1.न्वाली	न्वाली	न्वाली	52	1.न्वाली	न्वाली	न्वाली
53	1.पंगरौली	पंगरौली	पंगरौली	53	1.पंगरौली	पंगरौली	पंगरौली
54	1.पन्तसेरा 2.सुनखौली	पन्तसेरा	पन्तसेरा	54	1.पन्तसेरा 2.सुनखौली	पन्तसेरा	पन्तसेरा
55	1.पातलीगांव 2.सेठीगांव 3.त्याडीगांव 4.ल्वेठा	पातलीगांव	पातलीगांव	55	1.पातलीगांव 2.सेठीगांव 3.त्याडीगांव 4.ल्वेठा	पातलीगांव	पातलीगांव
56	1.पाली 2.सन्न	पाली	पाली	56	1.पाली 2.सन्न	पाली	पाली
57	1.बडलचमू 2.भकुण्डा	बडलचमू	बडलचमू	57	1.भकुण्डा 2.बडलचमू	भकुण्डा	नाम परिवर्तन भकुण्डा
58	1.बथौली	बथौली	बथौली	58	1.बथौली	बथौली	बथौली
59	1.बमडौली	बमडौली	बमडौली	59	1.बमडौली	बमडौली	बमडौली
60	1.बनीगांव 2.लमतडी 3.पुखरौडा	बनीगांव	बनीगांव	60	1.पुखरौडा 2.लमतडी 3.बनीगांव	पुखरौडा	नाम परिवर्तन पुखरौडा
61	1.बस्तडी 2.उडमा	बस्तडी	बस्तडी	61	1.बस्तडी 2.उडमा	बस्तडी	बस्तडी
62	1.बसौड 2.गौडी	बसौड	बसौड	62	1.बसौड 2.गौडी	बसौड	बसौड
63	1.बाजार 2.सिरतौली	बाजार	बाजार	63	1.बाजार 2.सिरतौली	बाजार	बाजार
64	1.बाटुला 2.मुसगल	बाटुला	बाटुला	64	1.बाटुला 2.मुसगल	बाटुला	बाटुला
65	1.बारमो 2.मुनावे	बारमो	बारमो	65	1.बारमो 2.मुनावे	बारमो	बारमो
66	1.बाराकोट 2.मझेडा 3.नाग 4.ताल	बाराकोट	बाराकोट	66	1.बाराकोट 2.मझेडा 3.नाग 4.ताल	बाराकोट	बाराकोट
67	1.बिछुल	बिछुल	बिछुल	67	1.बिछुल	बिछुल	बिछुल
68	1.भण्डारीगांव रजवार	भण्डारीगांव रजवार	भण्डारीगांव रजवार	68	1.भण्डारीगांव रजवार	भण्डारीगांव रजवार	भण्डारीगांव रजवार
69	1.भद्रिका 2.महतगांव	भद्रिका	भद्रिका	69	1.भद्रिका 2.महतगांव	भद्रिका	भद्रिका
70	1.भौतडी	भौतडी	भौतडी	70	1.भौतडी	भौतडी	भौतडी
71	1.मलानचर्मा 2.मितडापुरमुडा 3.लमडा	मलानचर्मा	मलानचर्मा	71	1.लमडा 2.मितडापुरमुडा 3.मलानचर्मा	लमडा	नाम परिवर्तन लमडा

1	2	3	4	5	6	7	8
72	1.महतगांव 2.अमकोट 3.कनेती	महतगांव	महतगांव	72	1.महतगांव 2.अमकोट 3.कनेती	महतगांव	महतगांव
73	1.मिताडीगांव 2.उमरी 3.गुडार	मिताडीगांव	मिताडीगांव	73	1.मिताडीगांव 2.उमरी 3.गुडार	मिताडीगांव	मिताडीगांव
74	1.मुसगांव 2.बोरागांव 3.मडकोली 4.तोलीविनायक	मुसगांव	मुसगांव	74	1.मुसगांव 2.बोरागांव 3.मडकोली 4.तोलीविनायक	मुसगांव	मुसगांव
75	1.मोडी 2.गुबरीली	मोडी	मोडी	75	1.मोडी 2.गुबरीली	मोडी	मोडी
76	1.रसगाडी 2.बडीगांव 3.गदाली 4.बैडा 5.उँचाकोट 6.बिजोरी	रसगाडी	रसगाडी	76	1.रसगाडी 2.बडीगांव 3.गदाली 4.बैडा 5.उँचाकोट 6.बिजोरी	रसगाडी	रसगाडी
77	1.रिण 2.बसेडी	रिण	रिण	77	1.रिण 2.बसेडी	रिण	रिण
78	1.लीमाटौडा 2.बिछट्टा 3.सिनखोला	लीमाटौडा	लीमाटौडा	78	1.लीमाटौडा 2.बिछट्टा 3.सिनखोला	लीमाटौडा	लीमाटौडा
79	1.लोहाकोट	लोहाकोट	लोहाकोट	79	1.लोहाकोट	लोहाकोट	लोहाकोट
80	1.लेकमकाण्डा 2.दारती 3.छब्बीसा 4.नाकोट 5.खडियानी	लेकमकाण्डा	लेकमकाण्डा	80	1.लेकमकाण्डा 2.दारती 3.छब्बीसा 4.नाकोट 5.खडियानी	लेकमकाण्डा	लेकमकाण्डा
81	1.स्यूबन 2.बचकोट	स्यूबन	स्यूबन	81	1.स्यूबन 2.बचकोट	स्यूबन	स्यूबन
82	1.सतगढ़	सतगढ़	सतगढ़	82	1.सतगढ़	सतगढ़	सतगढ़
83	1.सावलीसेरा 2.खिटकिडी 3.मट्यूला 4.चामीरैतेला 5.दूनीखोला 6.चामीगर्खा (गैर आ	सावलीसेरा	सावलीसेरा	83	1.सावलीसेरा 2.खिटकिडी 3.मट्यूला 4.चामीरैतेला 5.दूनीखोला 6.चामीगर्खा (गैर आ	सावलीसेरा	सावलीसेरा
84	1.सुरौण	सुरौण	सुरौण	84	1.सुरौण	सुरौण	सुरौण
85	1.सुरौली 2.तारागुन 3.मौकभाड	सुरौली	सुरौली	85	1.सुरौली 2.तारागुन 3.मौकभाड	सुरौली	सुरौली
86	1.सूनाकोट	सूनाकोट	सूनाकोट	86	1.सूनाकोट	सूनाकोट	सूनाकोट
87	1.सिल 2.गोथना 3.सिल ककडमन्या	सिल	सिल	87	1.गोथना 2.सिल 3.सिल ककडमन्या	गोथना	नाम परिवर्तन गोथना
88	1.सिलौनी	सिलौनी	सिलौनी	88	1.सिलौनी	सिलौनी	सिलौनी
89	1.सिरोली 2.ल्वाडी	सिरोली	सिरोली	89	1.सिरोली 2.ल्वाडी	सिरोली	सिरोली
	1.सौगांव				1.बर्नागांव		

1	2	3	4	5	6	7	8
90	2.कारीगांव 3.मेलखेत 4.चौखा 5.बर्नागांव	सौगांव	सौगांव	90	2.कारीगांव 3.मेलखेत 4.चौखा 5.सौगांव	बर्नागांव	नाम परिवर्तन बर्नागांव
91	1.हराली 2.जोशीगांव 3.पथरीली	हराली	हराली	91	1.हराली 2.जोशीगांव 3.पथरीली	हराली	हराली
92	1.हिनकोट	हिनकोट	हिनकोट	92	1.हिनकोट	हिनकोट	हिनकोट
क्षेत्र पंचायत का नाम-मूनाकोट				जिले का नाम-पिथौरागढ़			
वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम सभा का नाम	पंचायत क्षेत्र का नाम	क्र० सं०	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम सभा का नाम	पंचायत क्षेत्र का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1-अखुली 2-वांजधार	अखुली	अखुली	1	1-अखुली 2-वांजधार	अखुली	अखुली
2	1-उर्ग	उर्ग	उर्ग	2	1-उर्ग	उर्ग	उर्ग
3	1-कटियानी 2-कुचलाभदवाड़ी	कटियानी	कटियानी	3	1-कटियानी 2-कुचलाभदवाड़ी	कटियानी	कटियानी
4	1-क्वारबन	क्वारबन	क्वारबन	4	1-क्वारबन	क्वारबन	क्वारबन
5	1-क्वीगांव 2-मझेडा 3-चिमतोली मल्ली 4-चिमतोली तल्ली 5-भैंसदूंगा	क्वीगांव	क्वीगांव	5	1-क्वीगांव 2-मझेडा 3-चिमतोली मल्ली 4-चिमतोली तल्ली 5-भैंसदूंगा	क्वीगांव	क्वीगांव
6	1-क्वीतड 2-सिलफोडा 3-गुरुंगतोली 4-चौडा 5-कालाबन 6-जमतडी 7-ग्यालभाट	क्वीतड	क्वीतड	6	1-क्वीतड 2-सिलफोडा 3-गुरुंगतोली 4-चौडा 5-कालाबन 6-जमतडी 7-ग्यालभाट	क्वीतड	क्वीतड
7	1-कानडी	कानडी	कानडी	7	1-कानडी	कानडी	कानडी
8	1-कुनकटिया	कुनकटिया	कुनकटिया	8	1-कुनकटिया	कुनकटिया	कुनकटिया
9	1-खडकिनी 2-गैना तल्लावल्लिया	खडकिनी	खडकिनी	9	1-गैना तल्लावल्लिया 2-खडकिनी	गैना तल्लावल्लिया	क नाम परिवर्तन गैना
10	1-खतेडा 2-चिटगलिया	खतेडा	खतेडा	10	1-खतेडा 2-चिटगलिया	खतेडा	खतेडा
11	1-खूना 2-सुवाखेली 3-धुराईजर	खूना	खूना	11	1-खूना 2-सुवाखेली 3-धुराईजर	खूना	खूना
12	1-गलात	गलात	गलात	12	1-गलात	गलात	गलात
13	1-गेठीगडा	गेठीगडा	गेठीगडा	13	1-गेठीगडा	गेठीगडा	गेठीगडा
14	1-गैना नयादेश 2-बगडतोली	गैना नयादेश	गैना नयादेश	14	1-गैना नयादेश 2-बगडतोली	गैना नयादेश	गैना नयादेश

1	2	3	4	5	6	7	8
15	1-गौछनयाबाद 2-गौछ	गौछनयाबाद	गौछनयाबाद	15	1-गौछनयाबाद 2-गौछ	गौछनयाबाद	गौछनयाबाद
16	1-गौरीहाट	गौरीहाट	गौरीहाट	16	1-गौरीहाट	गौरीहाट	गौरीहाट
17	1-गंगासेरी 2-भैटाधानिक 3-भैटासेरामहर 4-हरडी 5-सरपाटो कैलागांव 6-चौक्यालगांव	गंगासेरी	गंगासेरी	17	1-गंगासेरी 2-भैटाधानिक 3-भैटासेरामहर 4-हरडी 5-सरपाटो कैलागांव 6-चौक्यालगांव	गंगासेरी	गंगासेरी
18	1-धुनसेरागांव 2-डुंगरीजोशी	धुनसेरागांव	धुनसेरागांव	18	1-धुनसेरागांव 2-डुंगरीजोशी	धुनसेरागांव	धुनसेरागांव
19	1-च्यौडी 2-जुलपाता	च्यौडी	च्यौडी	19	1-च्यौडी 2-जुलपाता	च्यौडी	च्यौडी
20	1-चिराली 2-धौनधुरा 3-दोलीखोली	चिराली	चिराली	20	1-चिराली 2-धौनधुरा 3-दोलीखोली	चिराली	चिराली
21	1-जलतुडी 2-दुविधा 3-कोठेरी	जलतुडी	जलतुडी	21	1-जलतुडी 2-दुविधा 3-कोठेरी	जलतुडी	जलतुडी
22	1-जाखपन्त 2-बरतिया कोटमहर 3-बरतया कोटनायक	जाखपन्त	जाखपन्त	22	1-जाखपन्त 2-बरतिया कोटमहर 3-बरतया कोटनायक	जाखपन्त	जाखपन्त
23	1-जाजरचिंगेरी	जाजरचिंगेरी	जाजरचिंगेरी	23	1-जाजरचिंगेरी	जाजरचिंगेरी	जाजरचिंगेरी
24	1-जीवीमयगूठ	जीवीमयगूठ	जीवीमयगूठ	24	1-जीवीमयगूठ	जीवीमयगूठ	जीवीमयगूठ
25	1-तडीगांव 2-ग्यालपीपली 3-जायल 4-बोनकोट	तडीगांव	तडीगांव	25	1-तडीगांव 2-ग्यालपीपली 3-जायल 4-बोनकोट	तडीगांव	तडीगांव
26	1-तडेमिया	तडेमिया	तडेमिया	26	1-तडेमिया	तडेमिया	तडेमिया
27	1-तोली	तोली	तोली	27	1-तोली	तोली	तोली
28	1-दिगरा 2-पूडाखेत 3-सलमगांव	दिगरा	दिगरा	28	1-दिगरा 2-पूडाखेत 3-सलमगांव	दिगरा	दिगरा
29	1-दिगांस 2-कोटली	दिगांस	दिगांस	29	1-कोटली 2-दिगांस	कोटली	नाम परिवर्तन कोटली
30	1-देवदार 2-उदयबूंगा	देवदार	देवदार	30	1-देवदार 2-उदयबूंगा	देवदार	देवदार
31	1-दोली	दोली	दोली	31	1-दोली	दोली	दोली
32	1-दोली उर्फ खर्कदोली 2-गाडगांव 3-दोगाड	दोली उर्फ खर्कदोली	दोली उर्फ खर्कदोली	32	1-दोली उर्फ खर्कदोली 2-गाडगांव 3-दोगाड	दोली उर्फ खर्कदोली	दोली उर्फ खर्कदोली
33	1-दोबांस	दोबांस	दोबांस	33	1-दोबांस	दोबांस	दोबांस

1	2	3	4	5	6	7	8
34	1-धारीएर 2-बेलतडी 3-दिगरा 4-रौलयागांव	धारीएर	धारीएर	34	1-धारीएर 2-बेलतडी 3-दिगरा 4-रौलयागांव	धारीएर	धारीएर
35	1-धुर्चू 2-धुर्चूनयाबाद	धुर्चू	धुर्चू	35	1-धुर्चू 2-धुर्चूनयाबाद	धुर्चू	धुर्चू
36	1-धौलकांडा	धौलकांडा	धौलकांडा	36	1-धौलकांडा	धौलकांडा	धौलकांडा
37	1-नाघर 2-कुमलता 3-विपुल 4-गाडगांव लग्गा मैचाली	नाघर	नाघर	37	1-विपुल 2-कुमलता 3-नाघर 4-गाडगांव लग्गा मैचाली	विपुल	नाम परिवर्तन विपुल
38	1-पनखोली 2-खतीगांव 3-सिनखेली 4-भांतड	पनखोली	पनखोली	38	1-पनखोली 2-खतीगांव 3-सिनखेली 4-भांतड	पनखोली	पनखोली
39	1-पाटीपल्चौडा	पाटीपल्चौडा	पाटीपल्चौडा	39	1-पाटीपल्चौडा	पाटीपल्चौडा	पाटीपल्चौडा
40	1-बडावे 2-लोदगाड	बडावे	बडावे	40	1-बडावे 2-लोदगाड	बडावे	बडावे
41	1-बडालू	बडालू	बडालू	41	1-बडालू	बडालू	बडालू
42	1-बलतडी	बलतडी	बलतडी	42	1-बलतडी	बलतडी	बलतडी
43	1-बसौड 2-कांडे बोरागांव 3-आगर 4-बनी 5-कैनखोला	बसौड	बसौड	43	1-बसौड 2-कांडे बोरागांव 3-आगर 4-बनी 5-कैनखोला	बसौड	बसौड
44	1-बुडलगांव 2-बडारी 3-नौगांव 4-खतेडा 5-सुनसेरा 6-गिन्डागांव 7-कालीपोखरी 8-आरोखोली	बुडलगांव	बुडलगांव	44	1-बडारी 2-बुडलगांव 3-नौगांव 4-खतेडा 5-सुनसेरा 6-गिन्डागांव 7-कालीपोखरी 8-आरोखोली	बडारी	नाम परिवर्तन बडारी
45	1-भटेडी	भटेडी	भटेडी	45	1-भटेडी	भटेडी	भटेडी
46	1-भडकटिया	भडकटिया	भडकटिया	46	1-भडकटिया	भडकटिया	भडकटिया
47	1-भौडी 2-चासा 3-स्यूसी 4-लामाखेत 5-पैकटिया	भौडी	भौडी	47	1-भौडी 2-चासा 3-स्यूसी 4-लामाखेत 5-पैकटिया	भौडी	भौडी
48	1-मजीरकांडा	मजीरकांडा	मजीरकांडा	48	1-मजीरकांडा	मजीरकांडा	मजीरकांडा
49	1-मझेडा 2-भूलागांव 3-अणाली 4-दौली विरकटिया 5-बलैत	मझेडा	मझेडा	49	1-मझेडा 2-भूलागांव 3-अणाली 4-दौली विरकटिया 5-बलैत	मझेडा	मझेडा
50	1-मडखडायत	मडखडायत	मडखडायत	50	1-मडखडायत	मडखडायत	मडखडायत

1	2	3	4	5	6	7	8
51	1-मडभानले 2-रौछेडा	मडभानले	मडभानले	51	1-मडभानले 2-रौछेडा	मडभानले	मडभानले
52	1-मनकटिया 2-विसखोली	मनकटिया	मनकटिया	52	1-मनकटिया 2-विसखोली	मनकटिया	मनकटिया
53	1-मनकोट 2-दोलीखोली उर्फ जगरानी	मनकोट	मनकोट	53	1-मनकोट 2-दोलीखोली उर्फ जगरानी	मनकोट	मनकोट
54	1-मसौली	मसौली	मसौली	54	1-मसौली	मसौली	मसौली
55	1-मुनाकोट 2-मन्थला 3-किल्ल	मुनाकोट	मुनाकोट	55	1-मुनाकोट 2-मन्थला 3-किल्ल	मुनाकोट	मुनाकोट
56	1-रज्यूडा 2-पूंगापानी 3-जमीरपानी	रज्यूडा	रज्यूडा	56	1-रज्यूडा 2-पूंगापानी 3-जमीरपानी	रज्यूडा	रज्यूडा
57	1-रियांसी 2-लांगडी	रियांसी	रियांसी	57	1-रियांसी 2-लांगडी	रियांसी	रियांसी
58	1-रुईना	रुईना	रुईना	58	1-रुईना	रुईना	रुईना
59	1-रिखई 2-आनू 3-कुर्मा	रिखई	रिखई	59	1-रिखई 2-आनू 3-कुर्मा	रिखई	रिखई
60	1-विलई 2-पत्थरखानी	विलई	विलई	60	1-विलई 2-पत्थरखानी	विलई	विलई
61	1-विसखोली 2-धौलीदूंगा	विसखोली	विसखोली	61	1-विसखोली 2-धौलीदूंगा	विसखोली	विसखोली
62	1-वीसावजेड 2-धारीगाड 3-सुपोखरा 4-पचौरा 5-तिमलपाटा	वीसावजेड	वीसावजेड	62	1-वीसावजेड 2-धारीगाड 3-सुपोखरा 4-पचौरा 5-तिमलपाटा	वीसावजेड	वीसावजेड
63	1-शातसिलिंग	शातसिलिंग	शातसिलिंग	63	1-शातसिलिंग	शातसिलिंग	शातसिलिंग
64	1-सकुन 2-ध्याण	सकुन	सकुन	64	1-सकुन 2-ध्याण	सकुन	सकुन
65	1-सलमोडा 2-मूलागाड 3-ओलीगांव 4-गठान	सलमोडा	सलमोडा	65	1-सलमोडा 2-मूलागाड 3-ओलीगांव 4-गठान	सलमोडा	सलमोडा
66	1-सल्ला	सल्ला	सल्ला	66	1-सल्ला	सल्ला	सल्ला
67	1-सिलिंगिया	सिलिंगिया	सिलिंगिया	67	1-सिलिंगिया	सिलिंगिया	सिलिंगिया
68	1-सिमलकोट	सिमलकोट	सिमलकोट	68	1-सिमलकोट	सिमलकोट	सिमलकोट
69	1-सिरकुच	सिरकुच	सिरकुच	69	1-सिरकुच	सिरकुच	सिरकुच
70	1-सिरड 2-नैनीनयाबाद 3-नैनीपाताल 4-पातालपोखरी	सिरड	सिरड	70	1-सिरड 2-नैनीनयाबाद 3-नैनीपाताल 4-पातालपोखरी	सिरड	सिरड
71	1-सेल	सेल	सेल	71	1-सेल	सेल	सेल
72	1-सिलौनी 2-काण्डापुनेठा 3-कोसेरी	सिलौनी	सिलौनी	72	1-सिलौनी 2-काण्डापुनेठा 3-कोसेरी	सिलौनी	सिलौनी
73	1-सौडलेख	सौडलेख	सौडलेख	73	1-सौडलेख	सौडलेख	सौडलेख

1	2	3	4	5	6	7	8
74	1-सौनगांव 2-भाटीगांव	सौनगांव	सौनगांव	74	1-सौनगांव 2-भाटीगांव	सौनगांव	सौनगांव
75	1-हल्द्व 2-कवैराली	हल्द्व	हल्द्व	75	1-हल्द्व 2-कवैराली	हल्द्व	हल्द्व
76	1-हिमतड	हिमतड	हिमतड	76	1-हिमतड	हिमतड	हिमतड
क्षेत्र पंचायत का नाम-मुनस्यारी				जिले का नाम-पिथौरागढ़			
वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम सभा का नाम	पंचायत क्षेत्र का नाम	क्र० सं०	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम सभा का नाम	पंचायत क्षेत्र का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 कवीरी 2 जिमियाँ	कवीरीजिमियाँ	कवीरी जिमियाँ	1	1 कवीरी जिमियाँ 2 जिमियाँ	कवीरीजिमियाँ	कवीरी जिमियाँ
2	1 इमला 2 कनलका 3 कोटालगांव	कोटालगांव	कोटालगांव	2	1 इमला 2 कनलका 3 कोटालगांव	कोटालगांव	कोटालगांव
3	1 कोटा	कोटा	कोटा	3	1 कोटा	कोटा	कोटा
4	1 कोटयूड़ा	कोटयूड़ा	कोटयूड़ा	4	1 कोटयूड़ा	कोटयूड़ा	कोटयूड़ा
5	1 किमखेत 2 रुमटा 3 तोली 4 उपदिया	किमखेत	किमखेत	5	1 किमखेत 2 रुमटा 3 तोली 4 उपदिया	किमखेत	किमखेत
6	1 क्वीटी 2 मोडम	क्वीटी	क्वीटी	6	1 क्वीटी	क्वीटी	क्वीटी
7	1 मपवाल बाड़ा 2 खसियाबाड़ा 3 जुदुका 4 मतियाली 5 किरखेत	खसियाबाड़ा	खसियाबाड़ा	7	1 मपवाल बाड़ा 2 खसियाबाड़ा 3 जुदुका 4 मतियाली 5 किरखेत	खसियाबाड़ा	खसियाबाड़ा
8	1 खेतभराड़ 2 पोर्धी	खेतभराड़	खेतभराड़	8	1 खेतभराड़ 2 पोर्धी	खेतभराड़	खेतभराड़
9	1 खतेड़ा 2 भकुण्डा 3 रौड़ा	खतेड़ा	खतेड़ा	9	1 खतेड़ा 2 भकुण्डा 3 रौड़ा	खतेड़ा	खतेड़ा
10	1 खोयम 2 जेर्धी	खोयम	खोयम	10	1 खोयम 2 जेर्धी	खोयम	खोयम
11	1 गटघोरगाड़ी	गटघोरगाड़ी	गटघोरगाड़ी	11	1 गटघोरगाड़ी	गटघोरगाड़ी	गटघोरगाड़ी
12	1 गिनी 2 पुरदम	गिनी	गिनी	12	1 गिनी 2 पुरदम	गिनी	गिनी
13	1 गोल्फा	गोल्फा	गोल्फा	13	1 गोल्फा	गोल्फा	गोल्फा
14	1 गूठी	गूठी	गूठी	14	1 गूठी	गूठी	गूठी
15	1 गौला 2 जौग्यूड़ा	गौला	गौला	15	1 गौला 2 जौग्यूड़ा	गौला	गौला
16	1 गिरगांव 2 पैयापिनारी 3 उमली	गिरगांव	गिरगांव	16	1 गिरगांव 2 पैयापिनारी 3 उमली	गिरगांव	गिरगांव
17	1 चौना 2 मोरपट्टा 3 भदेली	चौना	चौना	17	1 चौना 2 मोरपट्टा 3 भदेली	चौना	चौना
18	1 चुलकोट	चुलकोट	चुलकोट	18	1 चुलकोट	चुलकोट	चुलकोट
19	1 चामी बैसकोट	चामी बैसकोट	चामी बैसकोट	19	1 चामी बैसकोट	चामी बैसकोट	चामी बैसकोट

1	2	3	4	5	6	7	8
1	2 सुवालेख			2 सुवालेख			नाम परिवर्तन कव्वाधार
20	1 चेटीचिमला	चेटीचिमला	चेटीचिमला	20	1 कव्वाधार	कव्वाधार	
	2 धामीकुड़ा				2 धामीकुड़ा		
	3 कव्वाधार				3 चेटीचिमला		
	4 मानाचुलकार				4 मानाचुलकार		
	5 घटधार				5 घटधार		
	6 उखड़िया				6 उखड़िया		
21	1 जैती	जैती	जैती	21	1 जैती	जैती	जैती
22	1 जोशा	जोशा	जोशा	22	1 जोशा	जोशा	जोशा
23	1 जलथ	जलथ	जलथ	23	1 जलथ	जलथ	जलथ
24	1 बिन्दी			24	1 बिन्दी		
	2 फरवेकोट	टांगा	टांगा		2 फरवेकोट	टांगा	टांगा
	3 लोदी				3 लोदी		
	4 टांगा				4 टांगा		
25	1 डोर	डोर	डोर	25	1 डोर	डोर	डोर
	2 नाकड़ी				2 नाकड़ी		
	3 छरतीएराड़ी				3 छरतीएराड़ी		
26	1 डुंगरी	डुंगरी	डुंगरी	26	1 डुंगरी	डुंगरी	डुंगरी
27	1 डिमडिमिया	डिमडिमिया	डिमडिमिया	27	1 डिमडिमिया	डिमडिमिया	डिमडिमिया
	2 कुलथम				2 कुलथम		
	3 उगराली				3 उगराली		
	4 फल्याटी				4 फल्याटी		
28	1 तल्ला घोरपट्टा	तल्ला घोरपट्टा	तल्ला घोरपट्टा	28	1 तल्ला घोरपट्टा	तल्ला घोरपट्टा	तल्ला घोरपट्टा
	2 खोली				2 खोली		
29	1 तल्ला भैंसकोट	तल्ला भैंसकोट	तल्ला भैंसकोट	29	1 तल्ला भैंसकोट	तल्ला भैंसकोट	तल्ला भैंसकोट
	2 बमनगांव खालसा				2 बमनगांव खालसा		
30	1 तेजम	तेजम	तेजम	30	1 तेजम	तेजम	तेजम
31	1 तोमिक	तोमिक	तोमिक	31	1 तोमिक	तोमिक	तोमिक
32	1 दरकोट	दरकोट	दरकोट	32	1 दरकोट	दरकोट	दरकोट
33	1 दुम्बरतल्ला	दुम्बरतल्ला	दुम्बरतल्ला	33	1 दुम्बरतल्ला	दुम्बरतल्ला	दुम्बरतल्ला
	2 दुम्बरतल्ला				2 दुम्बरतल्ला		
34	1 दराती	दराती	दराती	34	1 दराती	दराती	दराती
	2 राथी				2 राथी		
	3 नमजला				3 नमजला		
	4 नगड़ियाबाड़ा				4 नगड़ियाबाड़ा		
	5 मिनालगांव				5 मिनालगांव		
	6 चरखम				6 चरखम		
	7 दियाबल्ला				7 दियाबल्ला		
	8 दियापल्ला				8 दियापल्ला		
35	1 आलम	दारमा	दारमा	35	1 आलम	दारमा	दारमा
	2 दारमा				2 दारमा		
36	1 दाखिम	दाखिम	दाखिम	36	1 दाखिम	दाखिम	दाखिम
37	1 दाफा	दाफा	दाफा	37	1 दाफा	दाफा	दाफा
	2 चचना				2 चचना		
	3 ला				3 ला		
38	1 देवकुना	देवकुना	देवकुना	38	1 देवकुना	देवकुना	देवकुना
	2 रातो				2 रातो		
39	1 धापा	धापा	धापा	39	1 धापा	धापा	धापा
40	1 धामीगांव	धामीगांव	धामीगांव	40	1 धामीगांव	धामीगांव	धामीगांव

1	2	3	4	5	6	7	8
	2 लटकोट				2 लटकोट		
41	1 धामीफल्याटी	धामीफल्याटी	धामीफल्याटी	41	1 धामीफल्याटी	धामीफल्याटी	धामीफल्याटी
42	1 धूरातोली	धूरातोली	धूरातोली	42	1 धूरातोली	धूरातोली	धूरातोली
	2 धौलियाडुंगा				2 धौलियाडुंगा		
	3 उच्छैती				3 उच्छैती		
43	1 नापड़	नापड़	नापड़	43	1 नापड़	नापड़	नापड़
	2 मूर्ती				2 मूर्ती		
	3 नैनथल				3 नैनथल		
44	1 नाघनी	नाघनी	नाघनी	44	1 नाघनी	नाघनी	नाघनी
45	1 नामिक	नामिक	नामिक	45	1 नामिक	नामिक	नामिक
46	1 पातों	पातों	पातों	46	1 पातों	पातों	पातों
	2 रालम						
47	1 पांछू	पांछू	पांछू	47	1 लास्पा	लास्पा	नाम परिवर्तन लास्पा
	2 रनघर				2 रनघर		
	3 मापा				3 मापा		
	4 ल्वा				4 पांछू		
	5 भरतोली				5 भरतोली		
	6 रिलकोट				6 रिलकोट		
	7 लास्पा				7 लास्पा		
	8 पोटिंग				8 पोटिंग		
48	1 पापड़ी	पापड़ी	पापड़ी	48	1 पापड़ी	पापड़ी	पापड़ी
49	1 गैलातल्ला	पत्थरकोट	पत्थरकोट	49	1 गैलातल्ला	पत्थरकोट	पत्थरकोट
	2 खाटा				2 खाटा		
	3 गैलामल्ला				3 गैलामल्ला		
	4 पत्थरकोट				4 पत्थरकोट		
50	1 फापा	फापा	फापा	50	1 फापा	फापा	फापा
	2 बादनी				2 बादनी		
51	1 बरा	बरा	बरा	51	1 बरा	बरा	बरा
52	1 बजेता	बजेता	बजेता	52	1 बजेता	बजेता	बजेता
53	1 बसन्तकोट	बसन्तकोट	बसन्तकोट	53	1 बसन्तकोट	बसन्तकोट	बसन्तकोट
	2 छीजातल्ला				2 छीजातल्ला		
	3 बोथी				3 बोथी		
	4 भटकुड़ा				4 भटकुड़ा		
54	1 निरतोली	बाता	निरतोली	54	1 निरतोली	बाता	निरतोली
	2 उमडाडा				2 उमडाडा		
	3 बाता				3 बाता		
55	1 बासानी	बासानी	बासानी	55	1 बासानी	बासानी	बासानी
	2 कुतिमा				2 कुतिमा		
	3 डांगटी				3 डांगटी		
	4 खोली				4 खोली		
	5 बजेली				5 बजेली		
	6 कापा				6 कापा		
56	1 बांसबगड़	बांसबगड़	बांसबगड़	56	1 बांसबगड़	बांसबगड़	बांसबगड़
	2 खेताली				2 खेताली		
	3 सिमलथड़				3 सिमलथड़		
57	1 बुई	बुई	बुई	57	1 बुई	बुई	बुई
	2 लीलम				2 लीलम		
58	1 बुफू	बुफू	बुफू	58	1 मिलम	मिलम	नाम परिवर्तन मिलम
	2 मिलम				2 बुफू		
	3 बिलजू				3 बिलजू		

1	2	3	4	5	6	7	8
	4 टोला				4 टोला		
	5 खिलांच				5 खिलांच		
	6 सुम्तू				6 सुम्तू		
59	1 बाथीगूठ	बाथीगूठ	बाथीगूठ	59	1 बाथीगूठ	बाथीगूठ	बाथीगूठ
	1 बेडूमहर				1 बेडूमहर		
60	2 रुमीडोला	बेडूमहर	बेडूमहर	60	2 रुमीडोला	बेडूमहर	बेडूमहर
	3 बारापट्टा				3 बारापट्टा		
61	1 बुंगा	बुंगा	बुंगा	61	1 बुंगा	बुंगा	बुंगा
	1 बर्नियागांव				1 बर्नियागांव		
62	2 सेलाचिटाल	बर्नियागांव	बर्नियागांव	62	2 सेलाचिटाल	बर्नियागांव	बर्नियागांव
	3 सेलामल्ला				3 सेलामल्ला		
	4 सेला				4 सेला		
63	1 बोना	बोना	बोना	63	1 बोना	बोना	बोना
	1 बोरगांव	बोरगांव	बोरगांव		1 बोरगांव	बोरगांव	बोरगांव
64	2 टिमटिया			64	2 टिमटिया		
	1 बमनगौवगूठ				1 बमनगौवगूठ		
65	2 सांगडी	बमनगौवगूठ	बमनगौवगूठ	65	2 सांगडी	बमनगौवगूठ	बमनगौवगूठ
	3 रौतगौव				3 रौतगौव		
	4 माजकोट				4 माजकोट		
	1 भुर्तिंग				1 भुर्तिंग		
66	2 भण्डारीगांव	भुर्तिंग	भुर्तिंग	66	2 भण्डारीगांव	भुर्तिंग	भुर्तिंग
	3 बिर्धी				3 बिर्धी		
	4 कैंठी				4 कैंठी		
	1 भैंसखाल	भैंसखाल	भैंसखाल		1 भैंसखाल	भैंसखाल	भैंसखाल
67	2 रसियाबगड़			67	2 रसियाबगड़		
	1 मदकोट				1 मदकोट		
68	2 डोवरीनारकी	मदकोट	मदकोट	68	2 डोवरीनारकी	मदकोट	मदकोट
	3 बैगा				3 बैगा		
69	1 मदरमा	मदरमा	मदरमा	69	1 मदरमा	मदरमा	मदरमा
	1 मगर	मगर	मगर		1 मगर	मगर	मगर
70	2 मडलकिया			70	2 मडलकिया		
71	1 मवानीदवानी	मवानीदवानी	मवानीदवानी	71	1 मवानीदवानी	मवानीदवानी	मवानीदवानी
72	1 मल्ला घोरपट्टा	मल्ला घोरपट्टा	मल्ला घोरपट्टा	72	1 मल्ला घोरपट्टा	मल्ला घोरपट्टा	मल्ला घोरपट्टा
73	1 मल्ला भैसकोट	मल्ला भैसकोट	मल्ला भैसकोट	73	1 मल्ला भैसकोट	मल्ला भैसकोट	मल्ला भैसकोट
74	1 मलौन	मलौन	मलौन	74	1 मलौन	मलौन	मलौन
75	1 माणीटुण्डी	माणीटुण्डी	माणीटुण्डी	75	1 माणीटुण्डी	माणीटुण्डी	माणीटुण्डी
76	1 माणीधामी	माणीधामी	माणीधामी	76	1 माणीधामी	माणीधामी	माणीधामी
	1 राप्ती				1 राप्ती		
77	2 डोल्मा	राप्ती	राप्ती	77	2 डोल्मा	राप्ती	राप्ती
	3 बिर्धीतराली				3 बिर्धीतराली		
	1 रिंगू	रिंगू	रिंगू		1 रिंगू	रिंगू	रिंगू
78	2 साणा			78	2 साणा		
79	1 रिंगोनिया	रिंगोनिया	रिंगोनिया	79	1 रिंगोनिया	रिंगोनिया	रिंगोनिया
	1 सिरमोला				1 सिरमोला		
80	2 रुईसपाटा	रुईसपाटा	रुईसपाटा	80	2 रुईसपाटा	रुईसपाटा	रुईसपाटा
	3 ताराकोट				3 ताराकोट		
81	1 रांया	रांया	रांया	81	1 रांया	रांया	रांया
82	1 लोद	लोद	लोद	82	1 लोद	लोद	लोद
	1 वल्थी	वल्थी	वल्थी		1 वल्थी	वल्थी	वल्थी
83	2 रोपाड़			83	2 रोपाड़		

1	2	3	4	5	6	7	8
84	1 सेरा 2 खरतोली 3 शिलिंग	शिलिंग	शिलिंग	84	1 सेरा 2 खरतोली 3 शिलिंग	शिलिंग	शिलिंग
85	1 समकोट	समकोट	समकोट	85	1 समकोट	समकोट	समकोट
86	1 सरमोली 2 संखधुरा	सरमोली	सरमोली	86	1 सरमोली 2 संखधुरा	सरमोली	सरमोली
87	1 साईभोट 2 साईपोलू	साईभोट	साईभोट	87	1 साईपोलू 2 साईभोट	साईपोलू	नाम परिवर्तन साईपोलू
88	1 सिरतोला	सिरतोला	सिरतोला	88	1 सिरतोला	सिरतोला	सिरतोला
89	1 सीणी	सीणी	सीणी	89	1 सीणी	सीणी	सीणी
90	1 सुरिंग 2 प्यांगती 3 सेनर 4 लड़ीग्वर	सुरिंग	सुरिंग	90	1 सुरिंग 2 प्यांगती 3 सेनर 4 लड़ीग्वर	सुरिंग	सुरिंग
91	1 सेलमाली	सेलमाली	सेलमाली	91	1 सेलमाली	सेलमाली	सेलमाली
92	1 सेरासुरईधार 2 डाडाबिसा 3 सेविला 4 तेलकोट 5 तेली 6 कैंटी	सेरासुरईधार	सेरासुरईधार	92	1 सेरासुरईधार 2 डाडाबिसा 3 सेविला 4 तेलकोट 5 तेली 6 कैंटी	सेरासुरईधार	सेरासुरईधार
93	1 सैणराथी 2 खेता 3 अठखेत	सैणराथी	सैणराथी	93	1 सैणराथी 2 खेता 3 अठखेत	सैणराथी	सैणराथी
94	1 सैमली	सैमली	सैमली	94	1 सैमली	सैमली	सैमली
95	1 रीठा 2 मालूपाती 3 मटेना 4 हरकोट	हरकोट	रीठा	95	1 रीठा 2 मालूपाती 3 मटेना 4 हरकोट	हरकोट	रीठा
96	1 हुपुली 2 बेल्साबगड़ 3 गडेश 4 सूपाधार	हुपुली	हुपुली	96	1 हुपुली 2 बेल्साबगड़ 3 गडेश 4 सूपाधार	हुपुली	हुपुली
97	1 होकरा	होकरा	होकरा	97	1 होकरा	होकरा	होकरा
				98	1 मोडम	मोडम	क० सं० 6 क्वीटी से नवगठित मोडम
				99	1 रालम	रालम	क० सं० 46 पातो से नवगठित रालम

क्षेत्र पंचायत का नाम-गंगोलीहाट				जिले का नाम-पिथौरागढ़			
वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम सभा का नाम	पंचायत क्षेत्र का नाम	क्र० सं०	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम सभा का नाम	पंचायत क्षेत्र का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 अग्रौन	अग्रौन	अग्रौन	1	1 अग्रौन	अग्रौन	अग्रौन
2	1 अनोली 2 खरचौडा 3 फालरो	अनोली	अनोली	2	1 अनोली 2 खरचौडा 3 फालरो	अनोली	अनोली
3	1 अस्कोडा 2 खरकोली	अस्कोडा	अस्कोडा	3	1 अस्कोडा 2 खरकोली	अस्कोडा	अस्कोडा

1	2	3	4	5	6	7	8
4	1 इटाना 2 डोबालखेत	इटाना	इटाना	4	1 इटाना 2 डोबालखेत	इटाना	इटाना
5	1 उप्राडा 2 जोग्यूडा 3 भण्डारीगांव 4 कफलाडी 5 गोठानी	उप्राडा	उप्राडा	5	1 उप्राडा 2 जोग्यूडा 3 भण्डारीगांव 4 कफलाडी 5 गोठानी	उप्राडा	उप्राडा
6	1 ओलिगांव 2 सन्न	ओलिगांव	ओलिगांव	6	1 ओलिगांव 2 सन्न	ओलिगांव	ओलिगांव
7	1 ओलियागांव 2 चमतोला 3 घारीधूमका	ओलियागांव	ओलियागांव	7	1 ओलियागांव 2 चमतोला 3 घारीधूमका	ओलियागांव	ओलियागांव
8	1 कांडा 2 उपनामापी	कांडा	कांडा	8	1 कांडा 2 उपनामापी	कांडा	कांडा
9	1 कुन्तोला 2 सेरागडा	कुन्तोला	कुन्तोला	9	1 कुन्तोला 2 सेरागडा	कुन्तोला	कुन्तोला
10	1 कुन्लता 2 खटली 3 नाघर 4 कोलूभेर	कुन्लता	कुन्लता	10	1 कुन्लता 2 खटली 3 नाघर 4 कोलूभेर	कुन्लता	कुन्लता
11	1 कूना 2 जौठा 3 भेदकूडी	कूना	कूना	11	1 कूना 2 जौठा 3 भेदकूडी	कूना	कूना
12	1 कोटली 2 भरकोट 3 भट्टीगांव 4 कोटरोट	कोटली	कोटली	12	1 कोटली 2 भरकोट 3 भट्टीगांव 4 कोटरोट	कोटली	कोटली
13	1 कोठेरा 2 बालाकूचा	कोठेरा	कोठेरा	13	1 कोठेरा 2 बालाकूचा 3 सुषाण	कोठेरा	कम सं0 107 से सुषाण सम्मिलित कोठेरा
14	1 खडकी 2 वज्यूडा 3 भैसात 4 मटकोना	खडकी	खडकी	14	1 वज्यूडा 2 खडकी 3 भैसात 4 मटकोना	वज्यूडा	नाम परिवर्तन वज्यूडा
15	1 खेतीगांव	खेतीगांव	खेतीगांव	15	1 खेतीगांव	खेतीगांव	खेतीगांव
16	1 खुलेत 2 सकार 3 घनीगांव 4 सुवाल 5 घाट पाथर	खुलेत	खुलेत	16	1 खुलेत 2 सकार 3 घनीगांव 4 सुवाल 5 घाट पाथर	खुलेत	खुलेत
17	1 खेतीगांव 2 ज्वाल	खेतीगांव	खेतीगांव	17	1 खेतीगांव 2 ज्वाल	खेतीगांव	खेतीगांव
18	1 गणाई 2 सिलकोट	गणाई	गणाई	18	1 गणाई 2 सिलकोट	गणाई	गणाई
19	1 ग्वाडी मल्ली 2 ग्वाडी तल्ली	ग्वाडी	ग्वाडी	19	1 ग्वाडी मल्ली 2 ग्वाडी तल्ली	ग्वाडी	ग्वाडी
20	1 ग्वाल 2 खितोली	ग्वाल	ग्वाल	20	1 ग्वाल 2 खितोली	ग्वाल	ग्वाल
21	1 ग्वासीकोट	ग्वासीकोट	ग्वासीकोट	21	1 ग्वासीकोट	ग्वासीकोट	ग्वासीकोट
22	1 गानूरा	गानूरा	गानूरा	22	1 गानूरा	गानूरा	गानूरा

1	2	3	4	5	6	7	8
23	1 गुनाकिटाण	गुनाकिटाण	गुनाकिटाण	23	1 गुनाकिटाण	गुनाकिटाण	गुनाकिटाण
24	1 गोबरगडा	गोबरगडा	गोबरगडा	24	1 गोबरगडा	गोबरगडा	गोबरगडा
	2 चापड				2 चापड		
	3 पुलई				3 पुलई		
25	1 गौलचोरा	गौलचोरा	गौलचोरा	25	1 गौलचोरा	गौलचोरा	गौलचोरा
	2 भरद्वारी				2 भरद्वारी		
	3 सुवनखोला				3 सुवनखोला		
	4 रैतोली						
26	1 घोडासिल	घोडासिल	घोडासिल	26	1 घोडासिल	घोडासिल	घोडासिल
	2 सिमल्ला				2 सिमल्ला		
27	1 चहज	चहज	चहज	27	1 चहज	चहज	चहज
	2 कलतिर				2 कलतिर		
	3 कलियापातल				3 कलियापातल		
	4 खेलाडी				4 खेलाडी		
	5 सरकांडे				5 सरकांडे		
28	1 चाक	चाक	चाक	28	1 चाक	चाक	चाक
29	1 चिटगल	चिटगल	चिटगल	29	1 चिटगल	चिटगल	चिटगल
30	1 चौकी	चौकी	चौकी	30	1 चौकी	चौकी	चौकी
	2 ढिगालगाव				2 ढिगालगाव		
	3 ढिगालगाव लगगा किरोला				3 ढिगालगाव लगगा किरोला		
	4 भुनडागूठ				4 भुनडागूठ		
31	1 चौड धुरौली	चौड धुरौली	चौड धुरौली	31	1 चौड धुरौली	चौड धुरौली	चौड धुरौली
32	1 चौडा		चौडा गोल्थी	32	1 गोल्थी	गोल्थी	नाम परिवर्तन गोल्थी
	2 रतगडिया				2 रतगडिया		
	3 गोल्थी				3 चौडा		
	4 सिराडी						
33	1 चौना	चौना	चौना	33	1 चौना	चौना	कम से032 से सिराडी सम्मिलित चौना
	2 कोटकनोरा				2 कोटकनोरा		
	3 ठठोली				3 ठठोली		
	4 द्वोतरी				4 द्वोतरी		
					5 सिराडी		
34	1 चौली	चौली	चौली	34	1 चौली	चौली	चौली
	2 चहाली				2 चहाली		
	3 लेचुराल जोशी				3 लेचुराल जोशी		
	4 सोनकी हाट				4 सोनकी हाट		
	5 सौन गांव				5 सौन गांव		
	6 बायल				6 बायल		
	7 हाट बायल				7 हाट बायल		
35	1 जखेडी	जखेडी	जखेडी	35	1 जखेडी	जखेडी	जखेडी
	2 खैरोली				2 खैरोली		
	3 जखेडी				3 जखेडी		
	चकडोडियाधार				चकडोडियाधार		
36	1 जजूट	जजूट	जजूट	36	1 जजूट	जजूट	जजूट
	2 पिपलेत				2 पिपलेत		
	3 खरीक				3 खरीक		
	4 सुनौली				4 सुनौली		
	5 काणी खेत				5 काणी खेत		
	1 नाग				1 नाग		
	2 जजोली				2 जजोली		

1	2	3	4	5	6	7	8
37	3 तल्ली बसै 4 मल्ली बसै 5 हितरो	जजौली	जजौली	37	3 तल्ली बसै 4 मल्ली बसै 5 हितरो	जजौली	जजौली
38	1 जमडकोट 2 आमटाना 3 गूलीगांव 4 हरडिया 5 जत्यूडी	जमडकोट	जमडकोट	38	1 जमडकोट 2 आमटाना 3 गूलीगांव 4 हरडिया 5 जत्यूडी	जमडकोट	जमडकोट
39	1 जमतौला 2 जमतौला मध्ये ताल 3 जमतौला मध्ये जाख 4 मटियाल	जमतौला	जमतौला	39	1 जमतौला 2 जमतौला मध्ये ताल 3 जमतौला मध्ये जाख 4 मटियाल	जमतौला	जमतौला
40	1 जरमालगांव 2 कनारा गूठ 3 क्वीनाडा	जरमालगांव	जरमालगांव	40	1 जरमालगांव 2 कनारा गूठ 3 क्वीनाडा	जरमालगांव	जरमालगांव
41	1 जाखनी उप्रेती	जाखनी उप्रेती	जाखनी उप्रेती	41	1 जाखनी उप्रेती	जाखनी उप्रेती	जाखनी उप्रेती
42	1 जीबल	जीबल	जीबल	42	1 जीबल	जीबल	जीबल
43	1 झलतोला	झलतोला	झलतोला	43	1 झलतोला	झलतोला	झलतोला
44	1 टिम्टा चंमडूगरा 2 दुबोला विरतोला 3 जडतोला	टिम्टा चंमडूगरा	टिम्टा चंमडूगरा	44	1 टिम्टा चंमडूगरा 2 दुबोला विरतोला 3 जडतोला	टिम्टा चंमडूगरा	टिम्टा चंमडूगरा
45	1 टुण्डाचौडा 2 कण्डारा	टुण्डाचौडा	टुण्डाचौडा	45	1 टुण्डाचौडा 2 कण्डारा	टुण्डाचौडा	टुण्डाचौडा
46	1 दुपरौली 2 नैकाना 3 सोनी	दुपरौली	दुपरौली	46	1 नैकाना 2 दुपरौली 3 सोनी	नैकाना	नाम परिवर्तन नैकाना
47	1 डम्डे 2 दुण्डिल	डम्डे	डम्डे	47	1 डम्डे 2 दुण्डिल	डम्डे	डम्डे
48	1 डसीलाखेत 2 गौड 3 भन्याडी	डसीलाखेत	डसीलाखेत	48	1 डसीलाखेत 2 गौड 3 भन्याडी	डसीलाखेत	डसीलाखेत
49	1 डूनी 2 खेत	डूनी	डूनी	49	1 डूनी 2 खेत	डूनी	डूनी
50	1 डूलहडाकोट	डूलहडाकोट	डूलहडाकोट	50	1 डूलहडाकोट	डूलहडाकोट	डूलहडाकोट
51	1 आगर 2 बरुडा 3 कन्युरी	दुगईआगर	दुगईआगर	51	1 आगर 2 बरुडा 3 कन्युरी	दुगईआगर	दुगईआगर
52	1 देवराला 2 रंगल 3 बैशाली 4 मटेला	देवराला	देवराला	52	1 देवराला 2 रंगल 3 बैशाली 4 मटेला	देवराला	देवराला
53	1 धराडी कुंड	धराडी कुंड	धराडी कुंड	53	1 धराडी कुंड	धराडी कुंड	धराडी कुंड
54	1 धारीधूमलाकोट 2 सिमालेटी	धारीधूमलाकोट	धारीधूमलाकोट	54	1 धारीधूमलाकोट 2 सिमालेटी	धारीधूमलाकोट	धारीधूमलाकोट
	1 ननोली				1 ननोली		

1	2	3	4	5	6	7	8
55	2 कल्वेफरसौला 3 सालाबूटी	ननोली	ननोली	55	2 कल्वेफरसौला 3 सालाबूटी	ननोली	ननोली
56	1 नाकोट 2 सैलोनी	नाकोट	नाकोट	56	1 नाकोट 2 सैलोनी	नाकोट	नाकोट
57	1 नायल 2 काकडा	नायल	नायल	57	1 नायल 2 काकडा	नायल	नायल
58	1 नाली 2 सिनोली	नाली	नाली	58	1 नाली 2 सिनोली	नाली	नाली
59	1 नेनालीकैणा	नेनालीकैणा	नेनालीकैणा	59	1 नेनालीकैणा	नेनालीकैणा	नेनालीकैणा
60	1 नैनी 2 धपना	नैनी	नैनी	60	1 नैनी 2 धपना	नैनी	नैनी
61	1 पभ्या 2 जूलियाखेत	पभ्या	पभ्या	61	1 जूलियाखेत 2 पभ्या	जूलियाखेत	नाम परिवर्तन जूलियाखेत
62	1 पल्लोडी 2 जातडी	पल्लोडी	पल्लोडी	62	1 जातडी 2 पल्लोडी	जातडी	नाम परिवर्तन जातडी
63	1 पाली 2 सालीखेत साहू	पाली	पाली	63	1 पाली 2 सालीखेत साहू	पाली	पाली
64	1 पाली पल्याल	पाली पल्याल	पाली पल्याल	64	1 पाली पल्याल	पाली पल्याल	पाली पल्याल
65	1 पासदेव 2 देवराडी पंत 3 जखेडी 4 डडोली	पासदेव	पासदेव	65	1 पासदेव 2 देवराडी पंत 3 जखेडी 4 डडोली	पासदेव	पासदेव
66	1 पिल्खी	पिल्खी	पिल्खी	66	1 पिल्खी	पिल्खी	पिल्खी
67	1 पिलिनिगलटि 2 नानी 3 लिंग	पिलिनिगलटि	पिलिनिगलटि	67	1 पिलिनिगलटि 2 नानी 3 लिंग	पिलिनिगलटि	पिलिनिगलटि
68	1 पोखरी अठठीगांव 2 सिंगरौली	पोखरी अठठीगांव	पोखरी अठठीगांव	68	1 पोखरी अठठीगांव 2 सिंगरौली	पोखरी अठठीगांव	पोखरी अठठीगांव
69	1 पोखरी 2 सिनगडी 3 सिन्तोला 4 नथनिया 5 हथमथिया	पोखरी भैरंग	पोखरी भैरंग	69	1 पोखरी 2 सिनगडी 3 सिन्तोला 4 नथनिया 5 हथमथिया	पोखरी भैरंग	पोखरी भैरंग
70	1 फडियाली 2 भाटगडा	फडियाली	फडियाली	70	1 फडियाली 2 भाटगडा	फडियाली	फडियाली
71	1 फुटसिल 2 टकोली	फुटसिल	फुटसिल	71	1 फुटसिल 2 टकोली	फुटसिल	फुटसिल
72	1 बटकातोली 2 पाभै	बटकातोली	बटकातोली	72	1 बटकातोली 2 पाभै	बटकातोली	बटकातोली
73	1 बटगेरी 2 सिरौली	बटगेरी	बटगेरी	73	1 बटगेरी 2 सिरौली	बटगेरी	बटगेरी
74	1 बडयूडा 2 डाणू	बडयूडा	बडयूडा	74	1 बडयूडा 2 डाणू	बडयूडा	बडयूडा
75	1 बडेना 2 कुण्ड	बडेना	बडेना	75	1 बडेना 2 कुण्ड	बडेना	बडेना
76	1 बनकोट 2 सून्याडी	बनकोट	बनकोट	76	1 बनकोट 2 सून्याडी	बनकोट	बनकोट
77	1 बनेलागांव	बनेलागांव	बनेलागांव	77	1 बनेलागांव	बनेलागांव	बनेलागांव

1	2	3	4	5	6	7	8
	2 चमलेख				2 चमलेख		
78	1 बलीगांव	बलीगांव	बलीगांव	78	1 बलीगांव	बलीगांव	बलीगांव
	2 चौधारी				2 चौधारी		
	3 राकड				3 राकड		
	4 भाटगांव				4 भाटगांव		
79	1 बॉस	बॉस	बॉस	79	1 बॉस	बॉस	बॉस
	2 पठान				2 पठान		
	3 भयूँ				3 भयूँ		
	4 सिमसिमानी				4 सिमसिमानी		
80	1 बालातडी	बालातडी	बालातडी	80	1.सिरौली	सिरौली	नाम परिवर्तन सिरौली
	2 कसेडी				2 कसेडी		
	3 सुतारगांव				3 सुतारगांव		
	4 सिरौली				4.बालातडी		
	5 मकडी सूदी विसौदी				5 मकडी सूदी विसौदी		
81	1 बासीखेत	बासीखेत	बासीखेत	81	1 बासीखेत	बासीखेत	बासीखेत
	2 खुरियागांव				2 खुरियागांव		
82	1 बा0खेत लग्गा ढनोलासेरा	बा0खेत लग्गा ढनोलासेरा	बा0खेत लग्गा ढनोलासेरा	82	1 बा0खेत लग्गा ढनोलासेरा	बा0खेत लग्गा ढनोलासेरा	बा0खेत लग्गा ढनोलासेरा
	2 ढनोलासेरा				2 ढनोलासेरा		
	3 बाजड				3 बाजड		
	4 कुनेत				4 कुनेत		
83	1 बुंगली	बुंगली	बुंगली	83	1 बुंगली	बुंगली	बुंगली
84	1 बुरसम	बुरसम	बुरसम	84	1 बुरसम	बुरसम	बुरसम
	2 डांडाधार				2 डांडाधार		
85	1 बुसैल	बुसैल	बुसैल	85	1 बुसैल	बुसैल	बुसैल
	2 मनखोला				2 मनखोला		
86	1 बोक्टा	बोक्टा	बोक्टा	86	1 बोक्टा	बोक्टा	बोक्टा
87	1 बोयल	बोयल	बोयल	87	1 बोयल	बोयल	बोयल
	2 जत्यूडी				2 जत्यूडी		
	3 सुगरनौला				3 सुगरनौला		
88	1 बैशाली	बैशाली	बैशाली	88	1 बैशाली	बैशाली	बैशाली
89	1 भण्डारीगांव	भण्डारीगांव	भण्डारीगांव	89	1 भण्डारीगांव	भण्डारीगांव	भण्डारीगांव
	2 खेतीगांव				2 खेतीगांव		
	3 तेनखोला				3 तेनखोला		
	4 जागरी				4 जागरी		
	5 रोलिया गांव				5 रोलिया गांव		
	6 निशिगांव				6 निशिगांव		
90	1 भामा	भामा	भामा	90	1 भामा	भामा	भामा
	2 दन्तौली				2 दन्तौली		
	3 जराजाखनी				3 जराजाखनी		
91	1 भिनगडी	भिनगडी	भिनगडी	91	1 भिनगडी	भिनगडी	कम सं0 25 से रैतौली सम्मिलित भिनगडी
	2 गांवखेत				2 गांवखेत		
	3 रैतौली				3 रैतौली		
92	1 भुलीगांव	भुलीगांव	भुलीगांव	92	1 भुलीगांव	भुलीगांव	भुलीगांव
93	1 मडकनाली	मडकनाली	मडकनाली	93	1 मडकनाली	मडकनाली	मडकनाली
94	1 मल्लागर्खा	मल्लागर्खा	मल्लागर्खा	94	1 मल्लागर्खा	मल्लागर्खा	मल्लागर्खा
95	1 मातौली	मातौली	मातौली	95	1 मातौली	मातौली	मातौली
	2 जमनलेख				2 जमनलेख		
	3 पोतना				3 पोतना		

1	2	3	4	5	6	7	8
96	1 रणकोट	रणकोट	रणकोट	96	1 रणकोट	रणकोट	रणकोट
97	1 रस्यून	रस्यून	रस्यून	97	1 रस्यून	रस्यून	रस्यून
98	1 रिठायत	रिठायत	रिठायत	98	1 रिठायत	रिठायत	रिठायत
	2 नोखुना				2 नोखुना		
99	1 रूंगडी	रूंगडी	रूंगडी	99	1 रूंगडी	रूंगडी	रूंगडी
	2 दिगार खोला				2 दिगार खोला		
	3 टूपकूडी				3 टूपकूडी		
	4 कलोन				4 कलोन		
	5 जांठा				5 जांठा		
	6 चक डोडियाधार				6 चक डोडियाधार		
100	1 रैतोला	रैतोला	रैतोला	100	1 रैतोला	रैतोला	रैतोला
101	1 रोतेडा	रोतेडा	रोतेडा	101	1 रोतेडा	रोतेडा	रोतेडा
	2 तुलखण्ड				2 तुलखण्ड		
102	1 लाखतोली	लाखतोली	लाखतोली	102	1 लाखतोली	लाखतोली	लाखतोली
	2 चिमरी				2 चिमरी		
	3 कधारी गूठ				3 कधारी गूठ		
	4 नरुवाघोल				4 नरुवाघोल		
	5 नौली				5 नौली		
103	1 व्यालकटिया	व्यालकटिया	व्यालकटिया	103	1 व्यालकटिया	व्यालकटिया	व्यालकटिया
	2 बहिलकोट				2 बहिलकोट		
	3 नरगवाडी				3 नरगवाडी		
	4 गराली				4 गराली		
	5 घाजरी				5 घाजरी		
104	1 विरगोली	विरगोली	विरगोली	104	1 विरगोली	विरगोली	विरगोली
	2 सोली				2 सोली		
	3 कोट लग्गा				3 कोट लग्गा		
	विरगोली				विरगोली		
105	1 विरोली	विरोली	विरोली	105	1 विरोली	विरोली	विरोली
	2 बुज्याड				2 बुज्याड		
106	1 सारतोला	सारतोला	सारतोला	106	1 सारतोला	सारतोला	सारतोला
	2 बडोलीसेरा				2 बडोलीसेरा		
107	1 सिमलकोट	सिमलकोट	सिमलकोट	107	1 सिमलकोट	सिमलकोट	सिमलकोट
	2 झरकोठेरा				2 झरकोठेरा		
	3 गोलाई				3 गोलाई		
	4 बेलुरी				4 बेलुरी		
	5 सुषाण				5 तुनाद सूजी		
	6 तुनाद सूजी				विसौदी		
	7 पुराना डाक				6 पुराना डाक		
	बंगला				बंगला		
108	1 सिमाली	सिमाली	सिमाली	108	1 सिमाली	सिमाली	सिमाली
	2 देवराडी बोरा				2 देवराडी बोरा		
	3 नेनवालगांव				3 नेनवालगांव		
109	1 सिरसौली	सिरसौली	सिरसौली	109	1 सिरसौली	सिरसौली	सिरसौली
	2 भानुमती				2 भानुमती		
	3 दुनई				3 दुनई		
110	1 सुकना	सुकना	सुकना	110	1 सुकना	सुकना	सुकना
	2 बानडी				2 बानडी		
	3 गोदीगाड				3 गोदीगाड		

1	2	3	4	5	6	7	8
	4 घाघल				4 घाघल		
	5 धरमोली				5 धरमोली		
	6 प्यातोली				6 प्यातोली		
	7 दुनखोली				7 दुनखोली		
111	1 सुगडी	सुगडी	सुगडी	111	1 सुगडी	सुगडी	सुगडी
112	1 सुनखोला	सुनखोला	सुनखोला	112	1 सुनखोला	सुनखोला	सुनखोला
	1 सुरखाल				1 सुरखाल		
	2 गडतिर				2 गडतिर		
	3 कमद				3 कमद		
113	4 घटगूडी	सुरखाल	सुरखाल	113	4 घटगूडी	सुरखाल	सुरखाल
	5 भनार				5 भनार		
	6 देवतुंग				6 देवतुंग		
	7 किम्टा				7 किम्टा		
	1 सुरखाल पाठक				1 सुरखाल पाठक		
114	2 सुगडा	सुरखाल पाठक	सुरखाल पाठक	114	2 सुगडा	सुरखाल पाठक	सुरखाल पाठक
	3 साहू				3 साहू		
	4 डोडरी				4 डोडरी		
	1 सून्यूडा				1 सून्यूडा		
115	2 लेवसर	सून्यूडा	सून्यूडा	115	2 लेवसर	सून्यूडा	सून्यूडा
	3 बाडीसडवे				3 बाडीसडवे		
	1 सेरा उर्फ बडोली	सेरा उर्फ बडोली	सेरा उर्फ बडोली		1 सेरा उर्फ बडोली	सेरा उर्फ बडोली	सेरा उर्फ बडोली
116	2 भनोलीगूठ			116	2 भनोलीगूठ		
	3 चौनापातल				3 चौनापातल		
	1 हनेरा लगगा रोल				1 हनेरा लगगा रोल		
	2 गोपील				2 गोपील		
117	3 बघर	हनेरा लगगा रोल	हनेरा लगगा रोल	117	3 बघर	हनेरा लगगा रोल	हनेरा लगगा रोल
	4 सौण				4 सौण		
	5 भांगडा खेत				5 भांगडा खेत		
	6 कपतर				6 कपतर		

हरि चन्द्र सेमवाल,
निदेशक,
पंचायतीराज।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 मई, 2019 ई0 (ज्येष्ठ 04 1941 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
सूचना

मैंने अपना नाम महेश कुमार से बदलकर महेश कुमार सैनी कर लिया है। भविष्य में मुझे महेश कुमार सैनी पुत्र श्याम सिंह सैनी नाम से जाना पहचाना जाये।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

महेश कुमार सैनी पुत्र श्री श्याम सिंह
सैनी निवासी ग्राम व पोस्ट सलेमपुर
राजपुतान रुड़की, जिला हरिद्वार

सूचना

I, Sudha Saxena, spouse of IC31975H Rank Col Name Dinesh Kumar Saxena resident of H.No. 839 Indira Nagar, Near Hill foundation School, Dehradun (UK) have changed my Name from Sudha Saxena to Sudha Srivastava Saxena vide Affidavit dated 11-Feb.-2019 before Court Compound Dehradun

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Sudha Srivastava Saxena W/o.
Col Dinesh Kumar Saxena (Retd.)
R/o H.No. 839 Indira Nagar,
Near Hill Foundation School,
Dehradun (UK)

सूचना

मैंने अपने पुत्र वंश गौरव का नाम धार्मिक कारण से बदलकर गौरव सेमवाल रख दिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को गौरव सेमवाल पुत्र कैलाश सेमवाल के नाम से जाना पहचाना जाये।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

कैलाश सेमवाल पुत्र घनानन्द
निवासी राममंदिर रामनगर रुड़की